



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2005/फाल्गुन 10, 1926

No. 86]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2005/PHALGUNA 10, 1926

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2005

सं. 11/2005—सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 109(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) उद्देशिका में,—

(अ) "धारा 3 की उपधारा (1)" शब्दों, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(आ) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात —

(क) उक्त सारणी की क्रम सं. 75क के सामने विनिर्दिष्ट माल को 1 अप्रैल, 2005 से;

(ख) उक्त सारणी की क्रम सं. 252क के सामने विनिर्दिष्ट माल को 1 मई, 2006 से;

(ग) उक्त सारणी की क्रम सं. 75 के सामने विनिर्दिष्ट माल को 2 जुलाई, 2005 से;

(घ) उक्त सारणी की क्रम सं. 170क के सामने विनिर्दिष्ट माल को 4 सितम्बर, 2005 से, लागू नहीं होगी।"

(II) सारणी में,—

(i) क्रम सं. 27 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रम सं. 40 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) क्रम सं. 50 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) क्रम सं. 65 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) क्रम सं. 66 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) क्रम सं. 68क के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) क्रम सं. 73 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (viii) क्रम सं० 75ख और क्रम सं० 75ग के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में दोनों स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ix) क्रम सं० 75घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“75ड	2711 19 00	घरेलू आंतरिक उपभोक्ता को प्रदाय के लिए आयातित द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	कुछ नहीं	-	-”;

- (x) क्रम सं० 81 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xi) क्रम सं० 84 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “28, 29, 32, 39, 54, 56, 70, 72 या 90” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xii) क्रम सं० 87, 90, 94, 102, 115 और 116 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में सभी स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xiii) क्रम सं० 119 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xiv) क्रम सं० 120, 124, 134, 161 और 165 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में सभी स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xv) क्रम सं० 167क के सामने, स्तंभ (3) में मद सं० (द) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(घ) आसंजक ;
- (न) तल्ले और शीट इकाई ;
- (प) एडी ;
- (फ) चमड़ा बोर्ड ;
- (ब) सैडल ट्री ;
- (भ) नायलॉन जाली ”;
- (xvi) क्रम सं० 173क, 185, 188 और 190 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में सभी स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xvii) क्रम सं० 207 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (xviii) क्रम सं० 212क के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xix) क्रम सं० 212ख के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xx) क्रम सं० 221 और 222 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में दोनों स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxi) क्रम सं० 244 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxii) क्रम सं० 244 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“244क	84, 85 या 90	सूची 26क में विनिर्दिष्ट माल	10 %	-	-”;

- (xxiii) क्रम सं. 248 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“248	84, 85 या 90	(1) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता द्वारा अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए आयातित भेषज और जैव- प्रौद्योगिकी सेक्टर में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :-  (क) सूची 27क में विनिर्दिष्ट माल (ख) सूची 28 में विनिर्दिष्ट माल  (2) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में रजिस्ट्रीकृत किसी विनिर्माता द्वारा जिसके पास अनुसंधान और विकास खंड है, आयातित भेषज और जैव- प्रौद्योगिकी सेक्टर में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :-  (क) सूची 27क में विनिर्दिष्ट माल (ख) सूची 28 में विनिर्दिष्ट माल	5%  कुछ नहीं  5%  कुछ नहीं	-  -  -  -	53(i)  53(i)  53(ii)  53(ii)”;

- (xxiv) क्रम सं० 253 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxv) क्रम सं० 260 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxvi) क्रम सं० 261 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (xxvii) क्रम सं० 267 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxviii) क्रम सं० 272 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, “नकद वितरक” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxix) क्रम सं० 273, 275, 276 और 276क के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में सभी स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxx) क्रम सं० 277 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, “नकद संवितरण यंत्र और निक्षेप माड्यूल के लिए स्वचालित टेलर मशीन” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxi) क्रम सं० 282 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxxii) क्रम सं० 285 के सामने, स्तंभ (3) में मद (1) में “कास्टिक सोडा एकक” शब्द, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर “कास्टिक सोडा एकक और कास्टिक पोटाश एकक” शब्द रखे जाएंगे ;
- (xxxiii) क्रम सं० 287, 298, 298क, 299, 300, 301, 302, 303, 303क, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 316, 316घ, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340 और 341 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में सभी स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxxiv) क्रम सं० 342 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxv) क्रम सं० 343 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xxxvi) क्रम सं० 344 के सामने, स्तंभ (4) में मद (1) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxvii) क्रम सं० 344क के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxviii) क्रम सं० 345 के सामने, स्तंभ (4) में मद सं० (1) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xxxix) क्रम सं० 366, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 385, 390 और 396 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में सभी स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xl) क्रम सं० 399 के सामने, स्तंभ (3) में क्रम सं० (iii) और क्रम सं० (vii) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों, स्तंभ (4), स्तंभ (5) और स्तंभ (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xli) क्रम सं० 428, 430 और 440 के सामने, स्तंभ (2) से स्तंभ (6) में सभी स्थानों पर प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

- [illegible]

(Ixxv) क्रम सं० 480 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
481	0806 20	सभी माल	100 %	-	-
482	0907	सभी माल	35 %	-	-
483	2106 90	सभी माल	150 %	-	-
484	2207 10	सभी माल	150 %	-	-
485	2208	सभी माल	150 %	-	-
486	2528	बोरॉन अयस्क	5 %	-	-
487	2709 00 00	सभी माल	5 %	-	-
488	2710, 2712, 2713, 2715	सभी माल	10 %	-	-
489	2818 20 10	सभी माल	10 %	-	-
490	2901, 2902, 2903, 2904	सभी माल	10 %	-	-
491	2905 43 00, 2905 44 00, 3301, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3809 10 00, 3823 11, 3823 12 00, 3823 13 00, 3823 19 00, 3824 60, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29	सभी माल	20 %	-	-
492	29 या 38	अल्फा पाइनेन	5 %	-	-
493	3815	सभी माल	10 %	-	-
494	39	इथाइल विनाइल एसीटेट (इवीए)	10 %	-	-
495	7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607	सभी माल	10 %	-	-
496	7805, 7806	सभी माल	10 %	-	-

497	8001, 8002, 8003, 8004, 8005 00 00	सभी माल	10 %	-	-
498	8443 90 10	सभी माल	10 %	-	-
499	8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8451, 8452 (8452 10, 8452 30 10, 8452 90 10 के सिवाय)	सूची 49 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न, सभी माल	10 %	-	-
500	84 या कोई अन्य अध्याय	उपर्युक्त क्रम सं० 499 के मालों के विनिर्माण के लिए कच्चा माल, भाग और संघटकों	10 %	-	5
501	8479	वायुमंडलीय जल जनित्र	5 %	-	-
502	84 या कोई अन्य अध्याय	किसी अंतःदेशीय आधान डिपो या आधान भाड़ा स्टेशन में उपयोग के लिए अपेक्षित रीच स्टैकर, स्थोरा कांटा उत्कर्ष और कांटा उत्कर्ष ट्रक, शीर्ष उत्कर्ष, रेल माउंटेड गेंद्री क्रेन, रबर टायर पर गेंद्री क्रेन, स्लिंग क्रेन और तुला चौकी	10 %	-	-
503	8507 90	बैटरी विभाजक	5 %	-	-
504	85 या कोई अन्य अध्याय	अध्याय 87 के बैटरी संचालित सड़क यानों के विनिर्माण के लिए सूची 48 में विनिर्दिष्ट माल,	10 %	-	5
505	86	सभी माल	10 %	-	-
506	8704	माल के परिवहन के लिए शीतित मोटर यान	10 %	-	-
507	9001 10 00	सभी माल	10 %	-	-";

## (III) अनुसूची में शर्तों के पश्चात्,-

- (क) सूची 8, 10 और 15 का लोप किया जाएगा ;
- (ख) सूची 26 में, मद (1), (6), (8), (10), (22) और (23) का लोप किया जाएगा ;
- (ग) सूची 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“सूची 26क (सारणी का क्रम सं0 244क देखिए)

1. विक्षेपी भाग, अर्थात् :—(i) ईएचटी/एलओटी/एफबीटी ट्रांसफार्मर (ii) लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर (iii) विक्षेपी कुंडली/योक (iv) लीनियरिटी कुंडली (v) विस्तार कुंडली
2. वायु क्रोडित और फेरिट क्रोडित ट्रांसफार्मर
3. आरएफ/आईएफ कुंडली, प्रेरकत्व कुंडली, शिखरत्व कुंडली, ट्यूनिंग कुंडली
4. लाउडस्पीकर (कोन प्रकार)”;

(घ) सूची 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“सूची 27क (सारणी का क्रम सं0 248 देखिए)

- “(1) कोशिका संवर्धन युक्तियां, अर्थात्, रोलर बोतल प्रणालियां और स्पिनर फ्लास्क
- (2) कार्बनडाइ आक्साइड उष्मायित्र
- (3) डी एन ए/ऑलिगोन्यूक्लिओटाइड्स संश्लेषक
- (4) इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रणाली- (प्रोटीन और डीएनए ; 2डी)
- (5) एलिसा रीडर
- (6) एलिसा वासर
- (7) प्रतिदीप्ति मापी
- (8) निम्न ताप हिमित्र (ऋण 70 डिग्री और उससे कम)
- (9) स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी (जिसके अन्तर्गत नाभकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी मापी भी हैं)”;

(ङ) सूची 32क में,—

- (i) मद सं0 (1) के क्रम सं0 (i) के सामने, “8509 40 90” अंकों के स्थान पर, “8479 82 00” अंक रखे जाएंगे ;

(ii) मद सं0 (3) में,—

(क) क्रम सं0 (i) के सामने, “8441 80 00” अंकों के स्थान पर, “8477 80 90” अंक रखे जाएंगे ;



(ख) क्रम सं० (ii) के सामने, "8441 80 00" अंकों के स्थान पर, "8477 80 90" अंक रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं० (vi) के सामने, "लेटेक्स अपकेन्द्रित परीक्षण" शब्दों के स्थान पर, "लेटेक्स अपकेन्द्रित" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) सूची 34 में,-

(i) मद (265) में, "चमड़े के जूतादि" शब्दों के स्थान पर, "जूतादि" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) मद (265) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(266) तल्लों और एडियों के लिए रंगकारी/पेंटिंग मशीनें

(267) अपर और पैतायों के लिए उच्च आवृत्ति की बैल्टिंग और कर्तन मशीनें

(268) पोलीयूरेथेन तल्लों के लिए अपस्नेहक/सफाई मशीन

(269) पट्टा फिटिंग मशीन

(270) आर पी बॉक्स स्ट्रेपिंग मशीन

(271) केनवस जूतों के लिए रूपदाएं

(272) जूतादि के लिए तल्लों और पट्टों के लिए रूपदाएं";

(छ) सूची 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"सूची 48 (सारणी का क्रम सं० 504 देखिए)

- (1) डीसी मोटर (अधिकतम शक्ति किलोवाट/आरपीएम - 5.8 किलोवाट(एस2 सेटिंग/3900)) ;
- (2) 5.46 किलोवाट क्षमता की डीसी श्रृंखला की मोटर ;
- (3) 20 अश्वशक्ति क्षमता की पृथक्कृत उत्तेजक डीसी कर्षण मोटर ;
- (4) इलेक्ट्रॉनिक मोसफेट सिपेक्स नियंत्रक ;
- (5) डीसी ब्रश विहीन बैटरी पंखा ;
- (6) संपर्शी (इलेक्ट्रॉनिक प्राकृतित्र नियंत्रक के लिए बैटरी वोल्टेज)";

(ज) सूची 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पर्याप्त, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“सूची 49 (सारणी का क्रम सं० 499 देखिए)

I.	ओटाई और दाबन मशीनरी
1.	स्वतः भरक सहित चिराई या द्विरोलर ओटक
2.	पूर्व निर्मलित्र
3.	लिट निर्मलित्र
4.	कपास लाने के लिए यांत्रिक/न्यूमेटिक संवाहक प्रणाली
5.	लिट लाने के लिए यांत्रिक/न्यूमेटिक संवाहक प्रणाली
6.	गांठ निपीड़ित्र
7.	बीजों के लिए संवाहक प्रणाली
8.	आई कारक/नमी कारक
9.	अग्निशमन प्रणाली
10.	कपास जांच के लिए एचबीआई
II.	प्रारंभिक कताई और कताई मशीनरी
1.	उच्च शक्ति कॉकित्र जिसकी क्षमता 400 निप्स प्रति मिनट तक है
2.	उच्च शक्ति लैप फारमर (प्रारंभिक कॉकित्र मशीन) जिसकी क्षमता 100एमपीएम तक है, स्वचालित दाना समायोजक सहित/रहित और उसके गग तथा उपसाधन
3.	स्वतः समतलक सहित 800 मीटर प्रति मिनट वितरण गति तक की उच्च उत्पादन ड्रा- फ्रेम
4.	अंतः निर्मित स्ट्रेच नियंत्रक सहित 1500 आरपीएम से कम के गति फ्रेम
5.	उत्पादन क्षमता 1500 से 2000 किलोग्राम प्रतिघंटा के साथ कपास और मानव निर्मित तंतु प्रक्रिया के लिए ब्लोरूम लाइन और स्वचालित गांठ प्लकर
III.	प्रारंभिक बुनाई और बुनाई मशीनरी
1.	शटल संनिवेशसहित सादे करघे और स्वचालित करघे

2.	700 मीटर प्रति मिनट गति तक के संनिवेश सहित रैपियर शटल रहित करघे
IV.	गारमेंट मशीनरी
1.	प्रतिमिनट 3000 से कम की टांका लगाने वाली औद्योगिक सिलाई मशीनें
2.	गारमेंट धुलाई मशीनें
3.	टम्बलर
4.	जल निकर्षक
5.	भाप प्रेस मेज
6.	फैब्रिक निरीक्षण मशीन” ।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं०सा०का०नि० 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 9/2005-सीमाशुल्क, तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 74(अ), तारीख 15 फरवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2005

**No. 11/2005—CUSTOMS**

**G.S.R. 109(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2002-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 118 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, namely:-

In the said notification, -

(I) in the preamble,-

(A) for the words, brackets and figures “sub-section (1) of section 3”, the word and figure “section 3” shall be substituted;

(B) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

“ Provided that nothing contained in this notification shall apply to -

- the goods specified against serial No. 75A of the said Table on or after the 1<sup>st</sup> day of April, 2005;
- the goods specified against serial No. 252A of the said Table on or after the 1<sup>st</sup> day of May, 2006;
- the goods specified against serial No. 75 of the said Table on or after the 2<sup>nd</sup> day of July, 2005;
- the goods specified against serial No. 170A of the said Table on or after the 4<sup>th</sup> day of September, 2005.”

## (II) in the Table,-

- (i) against S.No. 27, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (ii) against S.No. 40, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (iii) against S.No. 50, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (iv) against S.No. 65, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (v) against S.No. 66, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (vi) against S.No. 68A, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (vii) against S.No. 73, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (viii) against S.Nos. 75B and 75C, the entries in columns (2) to (6), at both the places, shall be omitted;
- (ix) after S.No. 75D, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"75E.	2711 19 00	Liquefied Petroleum Gases (LPG) imported for supply to household domestic consumer	Nil	-	-";

- (x) against S.No.81, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (xi) against S.No. 84, for the entry in column (2), the entry "28, 29, 32, 39, 54, 56, 70, 72 or 90" shall be substituted;
- (xii) against S.Nos. 87, 90, 94, 102,115 and 116, the entries in columns (2) to (6), at all the places, shall be omitted;
- (xiii) against S.No. 119, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;
- (xiv) against S.Nos. 120, 124, 134, 161 and 165, the entries in columns (2) to (6), at all the places, shall be omitted;
- (xv) against S.No. 167A, in column (3), after item (r), the following shall be inserted, namely:-  
 "(s) adhesives;  
 (t) unit soles and sheets;  
 (u) heels;  
 (v) leather board;  
 (w) saddle tree;  
 (x) nylon mesh";
- (xvi) against S.Nos.173A, 185, 188 and 190, the entries in columns (2) to (6), at all the places, shall be omitted;
- (xvii) against S.No. 207, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xviii) against S.No. 212A, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;
- (xix) against S.No. 212B, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xx) against S.Nos. 221 and 222, the entries in columns (2) to (6), at both the places, shall be omitted;
- (xxi) against S.No. 244, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (xxii) after S.No. 244 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"244A.	84, 85 or 90	Goods specified in List 26A	10%	-	-";

- (xxiii) for S.No. 248 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"248.	84, 85 or 90	(1) The following goods for use in pharmaceutical and biotechnology sector, imported for research and development purposes, by an importer registered with the Department of Scientific and Industrial Research, in the Ministry of Science and Technology of the Government of India, namely:- (a) Goods specified in List 27A (b) Goods specified in List 28 (2) The following goods for use in the pharmaceutical and biotechnology sector, imported by a manufacturer, having a research and development wing registered with the Department of Scientific and Industrial Research, in the Ministry of Science and Technology of the Government of India, namely:- (a) Goods specified in List 27A (b) Goods specified in List 28	5% Nil	- -	53(i) 53(i)
			5% Nil	- -	53(ii) 53(ii)";

- (xxiv) against S.No. 253, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (xxv) against S.No. 260, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;
- (xxvi) against S.No. 261, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;
- (xxvii) against S.No. 267, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (xxviii) against S.No. 272, for the entry in column (3), the entry "Cash dispensers" shall be substituted;
- (xxix) against S.Nos. 273, 275, 276 and 276A, the entries in columns (2) to (6), at all the places, shall be omitted;
- (xxx) against S.No. 277, for the entry in column (3), the entry "Cash Dispensing Mechanism and Deposit Modules for automatic teller machines" shall be substituted;
- (xxxi) against S.No. 282, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (xxxii) against S.No. 285, in column (3), in item (1), for the words "caustic soda unit" wherever they occur, the words "caustic soda unit or caustic potash unit" shall be substituted;
- (xxxiii) against S.Nos. 287, 298, 298A, 299, 300, 301, 302, 303, 303A, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 316, 316D, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340 and 341, the entries in columns (2) to (6), at all the places, shall be omitted;
- (xxxiv) against S.No. 342, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxxv) against S.No. 343, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (xxxvi) against S.No. 344, for the entry in column (4) occurring against item (1), the entry "15%" shall be substituted;
- (xxxvii) against S.No. 344A, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;
- (xxxviii) against S.No. 345, for the entry in column (4) occurring against item (1), the entry "15%" shall be substituted;
- (xxxix) against S.Nos. 366, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 385, 390 and 396, the entries in columns (2) to (6), at all the places, shall be omitted;
- (xl) against S.No. 399, in column (3) entries at serial Nos (iii) and (vii) and their corresponding entries in columns (4), (5) and (6) shall be omitted;
- (xli) against S.Nos. 428, 430 and 440, the entries in columns (2) to (6), at all the places, shall be omitted;
- (xlii) against S.No. 448, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (xliii) against S.No. 456, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (xliv) against S.No. 457, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (xlv) against S.No. 458, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (xlvi) against S.No. 459, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (xlvii) against S.No. 460, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (xlviii) against S.No. 461, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (xlix) against S.No. 465, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (l) against S.No. 466, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (li) against S.No. 467, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lii) against S.No. 468, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (liii) against S.No. 469, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (liv) against S.No. 470, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lv) against S.No. 471, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lvi) against S.No. 472, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lvii) against S.No. 473, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lviii) against S.No. 474, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lix) against S.No. 475, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lx) against S.No. 476, for the entry in column (4), the entry '5%' shall be substituted;
- (lxi) against S.No. 477, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (lxii) against S.No. 478, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (lxiii) against S.No. 479, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;
- (lxiv) against S.No. 480, for the entry in column (4), the entry '10%' shall be substituted;

(lxv) after S.No. 480, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
481.	0806 20	All goods	100%	-	-
482.	0907	All goods	35%	-	-
483.	2106 90	All goods	150%	-	-
484.	2207 10	All goods	150%	-	-
485.	2208	All goods	150%	-	-
486.	2528	Boron ores	5%	-	-
487.	2709 00 00	All goods	5%	-	-
488.	2710, 2712, 2713, 2715	All goods	10%	-	-
489.	2818 20 10	All goods	10%	-	-
490.	2901, 2902, 2903, 2904	All goods	10%	-	-
491.	2905 43 00, 2905 44 00, 3301, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3809 10 00, 3823 11, 3823 12 00, 3823 13 00, 3823 19 00, 3824 60, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29	All goods	20%	-	-
492.	29 or 38	Alpha Pinene	5%	-	-
493.	3815	All goods	10%	-	-
494.	39	Ethyl vinyl acetate (EVA)	10%	-	-
495.	7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607	All goods	10%	-	-
496.	7805, 7806	All goods	10%	-	-
497.	8001, 8002, 8003, 8004, 8005 00 00	All goods	10%	-	-
498.	8443 90 10	All goods	10%	-	-
499.	8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8451, 8452 (except 8452 10, 8452 30 10, 8452 90 10)	All goods, other than goods specified in List 49	10%	-	-
500.	84 or any other Chapter	Raw materials, parts and components for manufacture of goods at S.No. 499 above	10%	-	5
501.	8479	Atmospheric water generator	5%	-	-
502.	84 or any other Chapter	Reach stackers, cargo fork lifts & fork lift trucks, top lifter, rail mounted gantry cranes, rubber tyred gantry cranes, sling cranes and weighing bridges, required for use in an Inland Container Depot or Container Freight Station	10%	-	-
503.	8507 90	Battery separators	5%	-	-
504.	85 or any other Chapter	Goods specified in List 48, for the manufacture of battery operated road vehicles of Chapter 87	10%	-	5
505.	86	All goods	10%	-	-
506.	8704	Refrigerated motor vehicles for transport of goods	10%	-	-
507.	9001 10 00	All goods	10%	-	- "

(III) in the Annexure, after the Conditions,-

- (a) List 8, 10 and 15 shall be omitted;
- (b) in List 26, items (1), (6), (8), (10), (22) and (23) shall be omitted;
- (c) after List 26 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"List 26A ( See S.No. 244A of the Table )

- 1 Deflection parts, namely:- (i) EHT/LOT/GBT transformers (ii) Line driver transformers (iii) Deflection coil/yoke (iv) Linearity coil (v) Width coil
- 2 Air cored and ferrite cored transformers
- 3 RF/IF coils, inductance coils, peaking coils, tuning coils
- 4 Loud speakers (cone type)";

- (d) after List 27 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"List 27A ( See S.No. 248 of the Table )

1. Cell cultivation devices, namely, roller bottle systems and spinner flasks
2. CO<sub>2</sub> incubator
3. DNA/Oligonucleotides Synthesizers
4. Electrophoresis system – (Protein & DNA; 2D)
5. ELISA Reader
6. ELISA Washer
7. Fluorimeters
8. Low Temperature Freezers (minus 70 degrees and less)
9. Spectrophotometers (including Nuclear Magnetic Resonance Spectrometers) " ;

- (e) in List 32A,-

- (i) in item (1), against S.No (i), for the figures "8509 40 90", the figures "8479 82 00" shall be substituted;
- (ii) in item (3),-
  - (a) against S.No (i), for the figures "8441 80 00", the figures "8477 80 90" shall be substituted;
  - (b) against S.No (ii), for the figures "8441 80 00", the figures "8477 80 90" shall be substituted;
  - (c) against S.No (vi), for the words "Latex centrifuge testing", the words "Latex centrifuge" shall be substituted;

- (f) in List 34,-

- (i) in item (265), for the words "leather footwear", the word "footwear" shall be substituted;
- (ii) after item (265), the following shall be inserted, namely:-
  - "(266) Colouring/painting machines for soles and heels
  - (267) High frequency welding/cutting machines for uppers and insoles
  - (268) Degreasing/ cleaning machine for polyurethane soles
  - (269) Strap fitting machine
  - (270) R P box strapping machine
  - (271) Dies for canvas shoes
  - (272) Dies for soles and straps for footwear ";

- (g) after List 47 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"List 48 (See S.No. 504 of the Table)

1. DC motors [maximum power kW/rpm-5.8 kW (S2 rating/3900)];
2. DC series motor of capacity 5.46 kW;
3. Separately excited DC traction motor of capacity 20 HP;
4. Electronic MOSFET sepex controller;
5. DC brushless battery fan;
6. Contactor (battery voltage to electronic chopper controller) " ;

(h) after List 48 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"List 49 (See S.No 499 of the Table)

<b>I. Ginning And Pressing Machinery</b>	
1	Sawgins or double roller gins with auto feeder.
2	Pre-cleaner
3	Lint cleaner
4	Mechanical/pneumatic conveyer system for carrying kapas
5	Mechanical/Pneumatic conveyer system for carrying lint
6	Bale press
7	Conveyer system for seeds
8	Humidifier/moisturizer
9	Fire Fighting System
10	HVI for Cotton testing
<b>II. Spinning Preparatory and Spinning Machinery</b>	
1	High speed combers capable of running upto 400 nips per minute
2	High speed lap formers (comber preparatory machine) capable of running upto 100 MPM with/without automatic grain adjuster and parts and accessories thereof.
3	High Production draw-frame with delivery speed upto 800 meters/minute with autoleveller
4	Speed frame with less than 1500 r.p.m. with inbuilt stretch control
5	Blow room line for processing man made fibres and cotton with automatic bale plucker with production capacity of 1500 to 2000 kg per hour.
<b>III. Weaving Preparatory and Weaving Machinery</b>	
1	Plain loom and automatic loom with shuttle insertion
2	Rapier shuttleless loom with insertion rate upto 700 meter per minute.
<b>IV. Garmenting Machinery</b>	
1	Industrial sewing machines with less than 3000 stitches per minute
2	Garment washing machines
3	Tumblers
4	Hydro extractors
5	Steam iron tables
6	Fabric inspection machine".

[F. No. 334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No.9/2005-Customs, dated the 15<sup>th</sup> February, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 74 (E), dated the 15<sup>th</sup> February, 2005.

अधिसूचना

सं० 12/ 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

सा.का.नि. 110(अ) .— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 5/2004-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 2004 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 18(अ), तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई थीं या जिनका किए जाने से लोप किया गया था ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव



**Notification**

No. 12 /2005-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 110(E)**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 05/2004-Customs, dated the 8<sup>th</sup> January 2004, which was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 18 (E), dated the 8<sup>th</sup> January 2004, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 13/2005-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005

10 फाल्गुन, 1926(शक)

**सा.का.नि. 111(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जो, जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

**स्पष्टीकरण.**— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर मूल्यानुसार दर है जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए।

## सारणी

क्रम सं०.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	मानक दर
(1)	(2)	(3)
1.	25 (2504 और 2510 के सिवाय)	15 प्रतिशत
2.	2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 और 2620 30 90	15 प्रतिशत
3.	2701 (2701 12 00, 2701 20 10 और 2701 20 90 के सिवाय), 2705 00 00, 2706, 2707, 2708, 2710, 2712, 2713 और 2715	15 प्रतिशत
4.	28 (2801 20 00, 2814 10 00, 2814 20 00 और 2845 10 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
5.	29 (2901, 2902, 2903 15 00, 2903 21 00, 2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2926 10 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 और 2941 के सिवाय)	15 प्रतिशत
6.	3005 और 3008 (3008 60 के सिवाय)	15 प्रतिशत
7.	31 (3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 और 3105 90 के सिवाय)	15 प्रतिशत
8.	32 (3201 के सिवाय)	15 प्रतिशत
9.	33 (3301 और 3302 10 के सिवाय)	15 प्रतिशत
10.	3302 10	100 प्रतिशत

11.	34 (3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
12.	35 (3501, 3502, 3503, 3504, और 3505 के सिवाय)	15 प्रतिशत
13.	36	15 प्रतिशत
14.	37 (3701 20 00 और 3702 20 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
15.	38 (3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818, 3823 और 3824 60 के सिवाय)	15 प्रतिशत
16.	39	15 प्रतिशत
17.	40 (4001 10, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 और 4011 30 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
18.	4001 21 00, 4001 22 00 और 4001 29	20 प्रतिशत
19.	41 (4101, 4102 और 4103 के सिवाय)	15 प्रतिशत
20.	42	15 प्रतिशत
21.	4303 और 4304	15 प्रतिशत
22.	44 (4401, 4402 और 4403 के सिवाय)	15 प्रतिशत
23.	45	15 प्रतिशत
24.	46	15 प्रतिशत
25.	48(4801 के सिवाय)	15 प्रतिशत
26.	49 (4902, 4904 00 00 और 4905 के सिवाय)	15 प्रतिशत
27.	5004, 5005, 5006 और 5007	15 प्रतिशत
28.	5105 (5105 29 10 के सिवाय), 5106, 5107, 5108, 5109 और 5110	15 प्रतिशत
29.	5111 11	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
30.	5111 19	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
31.	5111 20	15 प्रतिशत या 80 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो

32.	5111 30	15 प्रतिशत या 75 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
33.	5111 90	15 प्रतिशत या 90 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
34.	5112 11	15 प्रतिशत या 125 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
35.	5112 19	15 प्रतिशत या 155 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
36.	5112 20	15 प्रतिशत या 85 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
37.	5112 30	15 प्रतिशत या 110 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
38.	5112 90	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
39.	5113	15 प्रतिशत या 60 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
40.	5204, 5205, 5206 और 5207	15 प्रतिशत
41.	5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, और 5208 33	15 प्रतिशत
42.	5208 39	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
43.	5208 41	15 प्रतिशत या 9 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
44.	5208 42	15 प्रतिशत या 37 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
45.	5208 43	15 प्रतिशत
46.	5208 49	15 प्रतिशत या 200 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
47.	5208 51	15 प्रतिशत या 27 रु. प्रति

		वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
48.	5208 52	15 प्रतिशत या 23 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
49.	5208 53	15 प्रतिशत या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
50.	5208 59	15 प्रतिशत या 50 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
51.	5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 और 5209 29	15 प्रतिशत
52.	5209 31, 5209 32 और 5209 39	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
53.	5209 41	15 प्रतिशत या 32 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
54.	5209 42 00	15 प्रतिशत या 25 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
55.	5209 43	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
56.	5209 49	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
57.	5209 51 और 5209 52	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
58.	5209 59	15 प्रतिशत या 38 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
59.	5210 11, 5210 12, 5210 19 00, 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 और 5210 32	15 प्रतिशत
60.	5210 39	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
61.	5210 41	15 प्रतिशत या 15 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
62.	5210 42	15 प्रतिशत या 25 रु. प्रति

		वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
63.	5210 49	15 प्रतिशत या 185 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
64.	5210 51, 5210 52 और 5210 59	15 प्रतिशत या 15 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
65.	5211 11, 5211 12, 5211 19 00, 5211 21, 5211 22 और 5211 29	15 प्रतिशत
66.	5211 31, 5211 32 और 5211 39	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
67.	5211 41	15 प्रतिशत या 44 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
68.	5211 42 00	15 प्रतिशत या 18 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
69.	5211 43	15 प्रतिशत या 40 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
70.	5211 49	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
71.	5211 51, 5211 52 और 5211 59	15 प्रतिशत या 18 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
72.	5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00	15 प्रतिशत
73.	5212 15 00	15 प्रतिशत या 165 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
74.	5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00	15 प्रतिशत
75.	5212 24 00	15 प्रतिशत या 20 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
76.	5212 25 00	15 प्रतिशत या 165 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
77.	53 5301 और 5302 के सिवाय)	15 प्रतिशत

78.	5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 और 5406	15 प्रतिशत
79.	5407 10	15 प्रतिशत या 115 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
80.	5407 20 और 5407 30	15 प्रतिशत
81.	5407 41	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
82.	5407 42	15 प्रतिशत या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
83.	5407 43 00	15 प्रतिशत या 67 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
84.	5407 44	15 प्रतिशत या 58 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
85.	5407 51	15 प्रतिशत या 11 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
86.	5407 52	15 प्रतिशत या 38 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
87.	5407 53 00	15 प्रतिशत या 50 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
88.	5407 54	15 प्रतिशत या 20 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
89.	5407 61	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
90.	5407 69 00	15 प्रतिशत या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
91.	5407 71	15 प्रतिशत या 10 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
92.	5407 72 00	15 प्रतिशत या 24 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो

93.	5407 73 00	15 प्रतिशत या 60 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
94.	5407 74 00	15 प्रतिशत या 38 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
95.	5407 81	15 प्रतिशत या 10 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
96.	5407 82	15 प्रतिशत या 42 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
97.	5407 83 00	15 प्रतिशत या 67 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
98.	5407 84	15 प्रतिशत या 38 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
99.	5407 91	15 प्रतिशत या 15 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
100.	5407 92 00	15 प्रतिशत या 67 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
101.	5407 93 00	15 प्रतिशत या 45 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
102.	5407 94 00	15 प्रतिशत या 67 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
103.	5408 10 00 और 5408 21	15 प्रतिशत
104.	5408 22	15 प्रतिशत या 45 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
105.	5408 23 00	15 प्रतिशत या 47 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
106.	5408 24	15 प्रतिशत या 87 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
107.	5408 31	15 प्रतिशत या 25 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
108.	5408 32	15 प्रतिशत या 44 रु. प्रति

		वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
109	5408 33 00	15 प्रतिशत या 10 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
110	5408 34	15 प्रतिशत या 11 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
111	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 और 5510	15 प्रतिशत
112	5511 10 00 और 5511 20 00	15 प्रतिशत या 31 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
113	5511 30	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
114	5512 11	15 प्रतिशत
115	5512 19	15 प्रतिशत या 42 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
116	5512 21	15 प्रतिशत
117	5512 29	15 प्रतिशत या 47 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
118	5512 91	15 प्रतिशत
119	5512 99	15 प्रतिशत या 65 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
120	5513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19	15 प्रतिशत
121	5513 21 00 और 5513 22 00	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
122	5513 23 00	15 प्रतिशत या 125 रु. प्रति किग्रा. या 25 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिकतम हो
123	5513 29 00	15 प्रतिशत या 185 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी



		अधिक हो
124	5513 31 00	15 प्रतिशत या 21 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
125	5513 32 00	15 प्रतिशत या 170 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
126	5513 33 00	15 प्रतिशत या 22 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
127	5513 39 00	15 प्रतिशत या 125 रु. प्रति किग्रा. या 30 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिकतम हो
128	5513 41 00	15 प्रतिशत या 25 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
129	5513 42 00	15 प्रतिशत या 12 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
130	5513 43 00	15 प्रतिशत या 20 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
131	5513 49 00	15 प्रतिशत या 185 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
132	5514 11, 5514 12, 5514 13 और 5514 19	15 प्रतिशत
133	5514 21 00	15 प्रतिशत या 100 रु. प्रति किग्रा. या 30 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिकतम हो
134	5514 22 00	15 प्रतिशत या 140 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
135	5514 23 00	15 प्रतिशत या 160 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
136	5514 29 00	15 प्रतिशत या 170 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो

137	5514 31 00	15 प्रतिशत या 84 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
138	5514 32 00	15 प्रतिशत या 43 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिकतम हो
139	5514 33 00	15 प्रतिशत या 180 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
140	5514 39 00	15 प्रतिशत या 31 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
141	5514 41 00	15 प्रतिशत या 26 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
142	5514 42 00	15 प्रतिशत या 140 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
143	5514 43 00	15 प्रतिशत या 31 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
144	5514 49 00	15 प्रतिशत या 160 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
145	5515 11	15 प्रतिशत या 40 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
146	5515 12	15 प्रतिशत या 95 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
147	5515 13	15 प्रतिशत या 75 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
148	5515 19	15 प्रतिशत या 45 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
149	5515 21	15 प्रतिशत या 79 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
150	5515 22	15 प्रतिशत या 140 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
151	5515 29	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो

152.	5515 91	15 प्रतिशत या 57 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
153.	5515 92	15 प्रतिशत या 55 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
154.	5515 99	15 प्रतिशत या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
155.	5516 11	15 प्रतिशत
156.	5516 12 00	15 प्रतिशत या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
157.	5516 13 00	15 प्रतिशत या 40 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
158.	5516 14	15 प्रतिशत या 12 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
159.	5516 21	15 प्रतिशत
160.	5516 22 00 और 5516 23 00	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
161.	5516 24 00	15 प्रतिशत या 12 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
162.	5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 और 5516 42 00	15 प्रतिशत
163.	5516 43 00 और 5516 44 00	15 प्रतिशत या 12 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
164.	5516 91 और 5516 92 00	15 प्रतिशत
165.	5516 93 00	15 प्रतिशत या 21 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो

		अधिक हो
166.	5516 94 00	15 प्रतिशत या 40 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
167.	56	15 प्रतिशत
168.	5701, 5702 10 00, 5702 20 और 5702 31	15 प्रतिशत
169.	5702 32	15 प्रतिशत या 105 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
170.	5702 39 और 5702 41	15 प्रतिशत
171.	5702 42	15 प्रतिशत या 80 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
172.	5702 49 और 5702 51	15 प्रतिशत
173.	5702 52	15 प्रतिशत या 105 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
174.	5702 59 और 5702 91	15 प्रतिशत
175.	5702 92	15 प्रतिशत या 110 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
176.	5702 99 और 5703 10	15 प्रतिशत
177.	5703 20	15 प्रतिशत या 70 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
178.	5703 30	15 प्रतिशत या 55 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
179.	5703 90 और 5704 10 00	15 प्रतिशत
180.	5704 90	15 प्रतिशत या 35 रु. प्रति वर्गमीटर इनमें से जो भी अधिक हो
181.	5705	15 प्रतिशत

182	5801 10 00	15 प्रतिशत या 210 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
183	5801 21 00	15 प्रतिशत या 80 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
184	5801 22	15 प्रतिशत या 75 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
185	5801 23 00	15 प्रतिशत या 80 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
186	5801 24 00	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
187	5801 25 00	15 प्रतिशत या 120 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
188	5801 26 00	15 प्रतिशत या 180 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
189	5801 31 00	15 प्रतिशत या 75 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
190	5801 32 00	15 प्रतिशत या 180 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
191	5801 33 00	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
192	5801 34	15 प्रतिशत या 140 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
193	5801 35 00	15 प्रतिशत या 68 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
194	5801 36	15 प्रतिशत या 130 रु. प्रति

		वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
195	5801 90	15 प्रतिशत या 35 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
196	5802 11 00	15 प्रतिशत
197	5802 19	15 प्रतिशत या 60 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
198	5802 20 00	15 प्रतिशत
199	5802 30 00	15 प्रतिशत या 150 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
200	5803	15 प्रतिशत
201	5804	15 प्रतिशत या 200 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
202	5805, 5806, 5807, 5808 और 5809	15 प्रतिशत
203	5810 10 00	15 प्रतिशत या 200 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
204	5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 और 5811	15 प्रतिशत
205	59	15 प्रतिशत
206	60 (6001 92 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
207	6001 92 00	15 प्रतिशत या 100 रु. प्रति किग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो
208	6101 10	15 प्रतिशत या 700 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
209	6101 20 00	15 प्रतिशत या 540 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
210	6101 30	15 प्रतिशत या 530 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

211	6101 90	15 प्रतिशत
212	6102 10 00	15 प्रतिशत या 595 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
213	6102 20 00	15 प्रतिशत या 425 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
214	6102 30	15 प्रतिशत या 475 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
215	6102 90, 6103, 6104 11 00, 6104 12 00 और 6104 13 00	15 प्रतिशत
216	6104 19	15 प्रतिशत या 460 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
217	6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 और 6104 39	15 प्रतिशत
218	6104 41 00	15 प्रतिशत या 255 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
219	6104 42 00	15 प्रतिशत
220	6104 43 00 और 6104 44 00	15 प्रतिशत या 255 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
221	6104 49	15 प्रतिशत या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
222	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 और 6104 59	15 प्रतिशत या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
223	6104 61 00	15 प्रतिशत
224	6104 62 00 और 6104 63 00	15 प्रतिशत या 98 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
225	6104 69	15 प्रतिशत
226	6105 10 और 6105 20	15 प्रतिशत या 83 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

227	6105 90	15 प्रतिशत या 90 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
228	6106 10 00	15 प्रतिशत या 90 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
229	6106 20	15 प्रतिशत या 25 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
230	6106 90	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
231	6107 11 00	15 प्रतिशत या 24 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
232	6107 12	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
233	6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92, 6107 99, 6108 11 और 6108 19	15 प्रतिशत
234	6108 21 00 और 6108 22	15 प्रतिशत या 25 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
235	6108 29, 6108 31 00, 6108 32 और 6108 39	15 प्रतिशत
236	6108 91 00	15 प्रतिशत या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
237	6108 92	15 प्रतिशत या 60 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
238	6108 99	15 प्रतिशत
239	6109 10 00	15 प्रतिशत या 45 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
240	6109 90	15 प्रतिशत या 50 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
241	6110 11, 6110 12 00 और 6110 19 00	15 प्रतिशत या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
242	6110 20 00	15 प्रतिशत या 85 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो



243	6110 30	15 प्रतिशत या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
244	6110 90 00	15 प्रतिशत या 105 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
245	6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 और 6117	15 प्रतिशत
246	6201 11 00 और 6201 12	15 प्रतिशत या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
247	6201 13	15 प्रतिशत या 320 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
248	6201 19	15 प्रतिशत
249	6201 91 00	15 प्रतिशत या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
250	6201 92 00	15 प्रतिशत या 210 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
251	6201 93 00	15 प्रतिशत या 180 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
252	6201 99	15 प्रतिशत
253	6202 11	15 प्रतिशत या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
254	6202 12 00	15 प्रतिशत या 210 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
255	6202 13 00	15 प्रतिशत या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
256	6202 19	15 प्रतिशत
257	6202 91	15 प्रतिशत या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
258	6202 92	15 प्रतिशत या 160 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
259	6202 93	15 प्रतिशत या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

260.	6202 99	15 प्रतिशत
261.	6203 11 00	15 प्रतिशत या 1100 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
262.	6203 12 00	15 प्रतिशत या 720 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
263.	6203 19	15 प्रतिशत या 1110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
264.	6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 और 6203 29 00	15 प्रतिशत या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
265.	6203 31 00	15 प्रतिशत या 815 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
266.	6203 32 00	15 प्रतिशत या 440 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
267.	6203 33 00	15 प्रतिशत या 320 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
268.	6203 39	15 प्रतिशत या 755 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
269.	6203 41 00	15 प्रतिशत या 285 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
270.	6203 42 00	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
271.	6203 43 00 और 6203 49	15 प्रतिशत या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
272.	6204 11 00	15 प्रतिशत या 550 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
273.	6204 12 00	15 प्रतिशत
274.	6204 13 00	15 प्रतिशत या 550 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
275.	6204 19	15 प्रतिशत या 500 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

276.	6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 और 6204 29	15 प्रतिशत
277.	6204 31 00	15 प्रतिशत या 370 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
278.	6204 32 00	15 प्रतिशत या 650 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
279.	6204 33 00	15 प्रतिशत या 390 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
280.	6204 39	15 प्रतिशत या 350 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
281.	6204 41	15 प्रतिशत या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
282.	6204 42	15 प्रतिशत या 116 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
283.	6204 43, 6204 44 00 और 6204 49	15 प्रतिशत या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
284.	6204 51 00	15 प्रतिशत या 485 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
285.	6204 52 00, 6204 53 00 और 6204 59	15 प्रतिशत
286.	6204 61	15 प्रतिशत या 285 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
287.	6204 62 00	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
288.	6204 63 00	15 प्रतिशत
289.	6204 69	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
290.	6205 10 00	15 प्रतिशत या 200 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
291.	6205 20 00	15 प्रतिशत या 85 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

292	6205 30 00	15 प्रतिशत या 120 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
293	6205 90	15 प्रतिशत या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
294	6206 10	15 प्रतिशत
295	6206 20 00	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
296	6206 30 00	15 प्रतिशत या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
297	6206 40 00	15 प्रतिशत या 120 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
298	6206 90 00	15 प्रतिशत
299	6207 11 00	15 प्रतिशत या 28 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
300	6207 19	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
301	6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 और 6207 92 00	15 प्रतिशत
302	6207 99	15 प्रतिशत या 70 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
303	6208 11 00	15 प्रतिशत या 80 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
304	6208 19	15 प्रतिशत या 60 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
305	6208 21 00, 6208 22 00 और 6208 29	15 प्रतिशत
306	6208 91	15 प्रतिशत या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
307	6208 92	15 प्रतिशत या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो

308	6208 99, 6209 और 6210 10 00	15 प्रतिशत
309	6210 20	15 प्रतिशत या 365 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
310	6210 30	15 प्रतिशत या 305 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
311	6210 40 और 6210 50 00	15 प्रतिशत या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
312	6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 और 6211 31 00	15 प्रतिशत
313	6211 32 00 और 6211 33 00	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
314	6211 39 00 और 6211 41 00	15 प्रतिशत
315	6211 42 और 6211 43 00	15 प्रतिशत या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
316	6211 49 00	15 प्रतिशत
317	6212	15 प्रतिशत या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
318	6213	15 प्रतिशत
319	6214 10	15 प्रतिशत या 390 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
320	6214 20	15 प्रतिशत या 180 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
321	6214 30 00 और 6214 40 00	15 प्रतिशत
322	6214 90	15 प्रतिशत या 75 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
323	6215	15 प्रतिशत या 55 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो
324	6216 और 6217	15 प्रतिशत
325	63 (6301 20 00, 6302 21 00 और 6302 31 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत

326	6301 20 00	15 प्रतिशत या 275 रु. प्र. नग, इनमें से जो भी अधिक हो
327	6302 21 00	15 प्रतिशत या 10 रु. प्र. किगा., इनमें से जो भी अधिक हो
328	6302 31 00	15 प्रतिशत या 96 रु. प्रति किगा., इनमें से जो भी अधिक हो
329	64	15 प्रतिशत
330	65	15 प्रतिशत
331	66	15 प्रतिशत
332	67	15 प्रतिशत
333	68	15 प्रतिशत
334	69	15 प्रतिशत
335	70	15 प्रतिशत
336	71	15 प्रतिशत
337	72	20 प्रतिशत
338	73	15 प्रतिशत
339	74	15 प्रतिशत
340	7615	15 प्रतिशत
341	78	15 प्रतिशत
342	79	15 प्रतिशत
343	81	15 प्रतिशत
344	82	15 प्रतिशत
345	83	15 प्रतिशत
346	8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407 10 00, 8407 29 00, 8407 31, 8407 32, 8407 33, 8407 34, 8407 90, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439,	15 प्रतिशत

	8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456 10 00, 8456 20 00, 8456 30 00, 8456 99, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469 12 00, 8469 20, 8469 30, 8472, 8473 10 00, 8473 40, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484 और 8485	
347	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8518, 8519, 8520 10 00, 8520 32 00, 8520 33, 8520 39, 8520 90, 8521, 8522, 8523 30 00, 8524 10, 8524 32, 8524 39, 8524 51, 8524 52, 8524 53, 8524 60 00, 8524 99, 8525 10, 8525 30 00, 8525 40 00, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530	15 प्रतिशत
348	8531 10, 8531 80 00, 8531 90 00, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540 11, 8540 12 00, 8540 20 00, 8540 50 00, 8540 60 00, 8540 71 00, 8540 72 00, 8540 79 00, 8540 81 00, 8540 89 00, 8540 91 00, 8540 99 00, 8543 19, 8543 20, 8543 30 00, 8543 40 00, 8543 89, 8543 90 00, 8544 11, 8544 19, 8544 20, 8544 30 00, 8544 41, 8544 49, 8544 51, 8544 59, 8544 60, 8545, 8546, 8547 और 8548	15 प्रतिशत
349	87(8703, 8710 00 00 और 8711 के सिवाय)	15 प्रतिशत
350	8703 और 8711	100 प्रतिशत
351	88 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
352	89(8908 00 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
353	9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009 12 00, 9009 22 00, 9009 30 00, 9010 10 00, 9010 50 00, 9010 60 00, 9010 90 00, 9011, 9012, 9013 10, 9013 20 00, 9013 80 90, 9013 90 90, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020 00 00, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9027 10 00, 9027 40 00, 9027 90, 9028, 9029, 9030 10 00, 9030 20 00, 9030 31 00, 9030 39, 9030 83 00, 9030 89, 9030 90, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 30 00, 9031 49 00, 9031 80 00, 9031 90 00, 9032 और 9033 00 00	15 प्रतिशत
354	91	15 प्रतिशत
355	92	15 प्रतिशत
356	93	15 प्रतिशत

357	94	15 प्रतिशत
358	95	15 प्रतिशत
359	96	15 प्रतिशत
360	97(9704 के सिवाय)	15 प्रतिशत
361	98 (9803 00 00 के सिवाय)	15 प्रतिशत
362	9803 00 00	100 प्रतिशत

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव



**Notification**  
No. 13 /2005-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005  
10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 111(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975), specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable.

**Explanation.**— For the purposes of this notification, the rate specified in column (3) is the *ad valorem* rate unless otherwise specified.

Table

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Standard rate
(1)	(2)	(3)
1.	25 (except 2504 and 2510)	15%
2.	2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 and 2620 30 90	15%
3.	2701 (except 2701 12 00, 2701 20 10 and 2701 20 90), 2705 00 00, 2706, 2707, 2708, 2710, 2712, 2713 and 2715	15%
4.	28 (except 2801 20 00, 2814 10 00, 2814 20 00 and 2845 10 00)	15%
5.	29 (except 2901, 2902, 2903 15 00, 2903 21 00, 2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2926 10 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 and 2941)	15%
6.	3005 and 3006 (except 3006 60)	15%
7.	31 (except 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 and 3105 90)	15%
8.	32 (except 3201)	15%
9.	33 (except 3301 and 3302 10)	15%
10.	3302 10	100%
11.	34 (except 3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00)	15%
12.	35 (except 3501, 3502, 3503, 3504, and 3505)	15%
13.	36	15%
14.	37 (except 3701 20 00 and 3702 20 00)	15%
15.	38 (except 3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818, 3823 and 3824 60)	15%
16.	39	15%
17.	40 (except 4001 10, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 and 4011 30 00)	15%

(1)	(2)	(3)
18.	4001 21 00, 4001 22 00 and 4001 29	20%
19.	41 (except 4101, 4102 and 4103)	15%
20.	42	15%
21.	4303 and 4304	15%
22.	44 (except 4401, 4402 and 4403)	15%
23.	45	15%
24.	46	15%
25.	48(except 4801)	15%
26.	49 (except 4902, 4904 00 00 and 4905)	15%
27.	5004, 5005, 5006 and 5007	15%
28.	5105 (except 5105 29 10), 5106, 5107, 5108, 5109 and 5110	15%
29.	5111 11	15% or Rs 135 per sq. metre, whichever is higher
30.	5111 19	15% or Rs 150 per sq. metre, whichever is higher
31.	5111 20	15% or Rs 80 per sq. metre, whichever is higher
32.	5111 30	15% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
33.	5111 90	15% or Rs. 90 per sq. metre, whichever is higher
34.	5112 11	15% or Rs. 125 per sq. metre, whichever is higher
35.	5112 19	15% or Rs. 155 per sq. metre, whichever is higher
36.	5112 20	15% or Rs. 85 per sq. metre, whichever is higher
37.	5112 30	15% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher
38.	5112 90	15% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher
39.	5113	15% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
40.	5204, 5205, 5206 and 5207	15%
41.	5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, and 5208 33	15%
42.	5208 39	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
43.	5208 41	15% or Rs. 9 per sq. metre, whichever is higher

(1)	(2)	(3)
44.	5208 42	15% or Rs. 37 per sq. metre, whichever is higher
45.	5208 43	15%
46.	5208 49	15% or Rs. 200 per kg., whichever is higher
47.	5208 51	15% or Rs. 27 per sq. metre, whichever is higher
48.	5208 52	15% or Rs. 23 per sq. metre, whichever is higher
49.	5208 53	15% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
50.	5208 59	15% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher
51.	5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 and 5209 29	15%
52.	5209 31, 5209 32 and 5209 39	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
53.	5209 41	15% or Rs. 32 per sq. metre, whichever is higher
54.	5209 42 00	15% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
55.	5209 43	15% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
56.	5209 49	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
57.	5209 51 and 5209 52	15% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
58.	5209 59	15% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
59.	5210 11, 5210 12, 5210 19 00, 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 and 5210 32	15%
60.	5210 39	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
61.	5210 41	15% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher
62.	5210 42	15% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
63.	5210 49	15% or Rs. 185 per kg., whichever is higher
64.	5210 51, 5210 52 and 5210 59	15% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher
65.	5211 11, 5211 12, 5211 19 00, 5211 21, 5211 22 and 5211 29	15%
66.	5211 31, 5211 32 and 5211 39	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
67.	5211 41	15% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher
68.	5211 42 00	15% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher
69.	5211 43	15% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
70.	5211 49	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher

(1)	(2)	(3)
71.	5211 51, 5211 52 and 5211 59	15% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher
72.	5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 and 5212 14 00	15%
73.	5212 15 00	15% or Rs. 165 per kg., whichever is higher
74.	5212 21 00, 5212 22 00 and 5212 23 00	15%
75.	5212 24 00	15% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher
76.	5212 25 00	15% or Rs. 165 per kg., whichever is higher
77.	53 (except 5301 and 5302)	15%
78.	5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 and 5406	15%
79.	5407 10	15% or Rs. 115 per kg., whichever is higher
80.	5407 20 and 5407 30	15%
81.	5407 41	15% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
82.	5407 42	15% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
83.	5407 43 00	15% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
84.	5407 44	15% or Rs. 58 per sq. metre, whichever is higher
85.	5407 51	15% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher
86.	5407 52	15% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
87.	5407 53 00	15% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher
88.	5407 54	15% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher
89.	5407 61	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
90.	5407 69 00	15% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
91.	5407 71	15% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher
92.	5407 72 00	15% or Rs. 24 per sq. metre, whichever is higher
93.	5407 73 00	15% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
94.	5407 74 00	15% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
95.	5407 81	15% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher
96.	5407 82	15% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher

(1)	(2)	(3)
97.	5407 83 00	15% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
98.	5407 84	15% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher
99.	5407 91	15% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher
100.	5407 92 00	15% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
101.	5407 93 00	15% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher
102.	5407 94 00	15% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher
103.	5408 10 00 and 5408 21	15%
104.	5408 22	15% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher
105.	5408 23 00	15% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher
106.	5408 24	15% or Rs. 87 per sq. metre, whichever is higher
107.	5408 31	15% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
108.	5408 32	15% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher
109.	5408 33 00	15% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher
110.	5408 34	15% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher
111.	5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 and 5510	15%
112.	5511 10 00 and 5511 20 00	15% or Rs. 31 per kg., whichever is higher
113.	5511 30	15% or Rs. 30 per kg., whichever is higher
114.	5512 11	15%
115.	5512 19	15% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher
116.	5512 21	15%
117.	5512 29	15% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher
118.	5512 91	15%
119.	5512 99	15% or Rs. 65 per kg., whichever is higher
120.	5513 11, 5513 12, 5513 13 and 5513 19	15%
121.	5513 21 00 and 5513 22 00	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
122.	5513 23 00	15% or Rs. 125 per kg. or Rs 25 per sq. metre, whichever is highest

(1)	(2)	(3)
123.	5513 29 00	15% or Rs. 185 per kg., whichever is higher
124.	5513 31 00	15% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher
125.	5513 32 00	15% or Rs. 170 per kg., whichever is higher
126.	5513 33 00	15% or Rs. 22 per sq. metre, whichever is higher
127.	5513 39 00	15% or Rs. 125 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest
128.	5513 41 00	15% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher
129.	5513 42 00	15% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
130.	5513 43 00	15% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher
131.	5513 49 00	15% or Rs. 185 per kg., whichever is higher
132.	5514 11, 5514 12, 5514 13 and 5514 19	15%
133.	5514 21 00	15% or Rs. 100 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest
134.	5514 22 00	15% or Rs. 140 per kg., whichever is higher
135.	5514 23 00	15% or Rs. 160 per kg., whichever is higher
136.	5514 29 00	15% or Rs. 170 per kg., whichever is higher
137.	5514 31 00	15% or Rs. 64 per sq. metre, whichever is higher
138.	5514 32 00	15% or Rs. 43 per sq. metre, whichever is highest
139.	5514 33 00	15% or Rs. 180 per kg., whichever is higher
140.	5514 39 00	15% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher
141.	5514 41 00	15% or Rs. 26 per sq. metre, whichever is higher
142.	5514 42 00	15% or Rs. 140 per kg., whichever is higher
143.	5514 43 00	15% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher
144.	5514 49 00	15% or Rs. 160 per kg., whichever is higher
145.	5515 11	15% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
146.	5515 12	15% or Rs. 95 per kg., whichever is higher
147.	5515 13	15% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
148.	5515 19	15% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher

(1)	(2)	(3)
149.	5515 21	15% or Rs. 79 per sq. metre, whichever is higher
150.	5515 22	15% or Rs. 140 per kg., whichever is higher
151.	5515 29	15% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher
152.	5515 91	15% or Rs. 57 per sq. metre, whichever is higher
153.	5515 92	15% or Rs. 55 per sq. metre, whichever is higher
154.	5515 99	15% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
155.	5516 11	15%
156.	5516 12 00	15% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
157.	5516 13 00	15% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
158.	5516 14	15% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
159.	5516 21	15%
160.	5516 22 00 and 5516 23 00	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
161.	5516 24 00	15% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
162.	5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 and 5516 42 00	15%
163.	5516 43 00 and 5516 44 00	15% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher
164.	5516 91 and 5516 92 00	15%
165.	5516 93 00	15% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher
166.	5516 94 00	15% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher
167.	56	15%
168.	5701, 5702 10 00, 5702 20 and 5702 31	15%
169.	5702 32	15% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher
170.	5702 39 and 5702 41	15%
171.	5702 42	15% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher
172.	5702 49 and 5702 51	15%
173.	5702 52	15% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher
174.	5702 59 and 5702 91	15%
175.	5702 92	15% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher

(1)	(2)	(3)
176.	5702 99 and 5703 10	15%
177.	5703 20	15% or Rs. 70 per sq. metre, whichever is higher
178.	5703 30	15% or Rs. 55 per sq. metre, whichever is higher
179.	5703 90 and 5704 10 00	15%
180.	5704 90	15% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
181.	5705	15%
182.	5801 10 00	15% or Rs. 210 per sq. metre, whichever is higher
183.	5801 21 00	15% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher
184.	5801 22	15% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
185.	5801 23 00	15% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher
186.	5801 24 00	15% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher
187.	5801 25 00	15% or Rs. 120 per sq. metre, whichever is higher
188.	5801 26 00	15% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher
189.	5801 31 00	15% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher
190.	5801 32 00	15% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher
191.	5801 33 00	15% or Rs. 150 per sq. metre, whichever is higher
192.	5801 34	15% or Rs. 140 per sq. metre, whichever is higher
193.	5801 35 00	15% or Rs. 68 per sq. metre, whichever is higher
194.	5801 36	15% or Rs. 130 per sq. metre, whichever is higher
195.	5801 90	15% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher
196.	5802 11 00	15%
197.	5802 19	15% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher
198.	5802 20 00	15%
199.	5802 30 00	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
200.	5803	15%
201.	5804	15% or Rs. 200 per kg., whichever is higher
202.	5805, 5806, 5807, 5808 and 5809	15%



(1)	(2)	(3)
203.	5810 10 00	15% or Rs. 200 per kg., whichever is higher
204.	5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 and 5811	15%
205.	59	15%
206.	60 (except 6001 92 00)	15%
207.	6001 92 00	15% or Rs. 100 per kg., whichever is higher
208.	6101 10	15% or Rs. 700 per piece, whichever is higher
209.	6101 20 00	15% or Rs. 540 per piece, whichever is higher
210.	6101 30	15% or Rs. 530 per piece, whichever is higher
211.	6101 90	15%
212.	6102 10 00	15% or Rs. 595 per piece, whichever is higher
213.	6102 20 00	15% or Rs. 425 per piece, whichever is higher
214.	6102 30	15% or Rs. 475 per piece, whichever is higher
215.	6102 90, 6103, 6104 11 00, 6104 12 00 and 6104 13 00	15%
216.	6104 19	15% or Rs. 460 per piece, whichever is higher
217.	6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32, 6104 33 00 and 6104 39	15%
218.	6104 41 00	15% or Rs. 255 per piece, whichever is higher
219.	6104 42 00	15%
220.	6104 43 00 and 6104 44 00	15% or Rs. 255 per piece, whichever is higher
221.	6104 49	15% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
222.	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 and 6104 59	15% or Rs. 110 per piece, whichever is higher
223.	6104 61 00	15%
224.	6104 62 00 and 6104 63 00	15% or Rs. 98 per piece, whichever is higher
225.	6104 69	15%
226.	6105 10 and 6105 20	15% or Rs. 83 per piece, whichever is higher
227.	6105 90	15% or Rs. 90 per piece, whichever is higher
228.	6106 10 00	15% or Rs. 90 per piece, whichever is higher
229.	6106 20	15% or Rs. 25 per piece, whichever is higher

230.	6106 90	15% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
231.	6107 11 00	15% or Rs. 24 per piece, whichever is higher
232.	6107 12	15% or Rs. 30 per piece, whichever is higher
233.	6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92, 6107 99, 6108 11 and 6108 19	15%
234.	6108 21 00 and 6108 22	15% or Rs. 25 per piece, whichever is higher
235.	6108 29, 6108 31 00, 6108 32 and 6108 39	15%
236.	6108 91 00	15% or Rs. 65 per piece, whichever is higher
237.	6108 92	15% or Rs. 60 per piece, whichever is higher
238.	6108 99	15%
239.	6109 10 00	15% or Rs. 45 per piece, whichever is higher
240.	6109 90	15% or Rs. 50 per piece, whichever is higher
241.	6110 11, 6110 12 00 and 6110 19 00	15% or Rs. 275 per piece, whichever is higher
242.	6110 20 00	15% or Rs. 85 per piece, whichever is higher
243.	6110 30	15% or Rs. 110 per piece, whichever is higher
244.	6110 90 00	15% or Rs. 105 per piece, whichever is higher
245.	6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 and 6117	15%
246.	6201 11 00 and 6201 12	15% or Rs. 385 per piece, whichever is higher
247.	6201 13	15% or Rs. 320 per piece, whichever is higher
248.	6201 19	15%
249.	6201 91 00	15% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
250.	6201 92 00	15% or Rs. 210 per piece, whichever is higher
251.	6201 93 00	15% or Rs. 180 per piece, whichever is higher
252.	6201 99	15%
253.	6202 11	15% or Rs. 385 per piece, whichever is higher
254.	6202 12 00	15% or Rs. 210 per piece, whichever is higher
255.	6202 13 00	15% or Rs. 385 per piece, whichever is higher
256.	6202 19	15%

(1)	(2)	(3)
257.	6202 91	15% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
258.	6202 92	15% or Rs. 160 per piece, whichever is higher
259.	6202 93	15% or Rs. 220 per piece, whichever is higher
260.	6202 99	15%
261.	6203 11 00	15% or Rs. 1100 per piece, whichever is higher
262.	6203 12 00	15% or Rs. 720 per piece, whichever is higher
263.	6203 19	15% or Rs. 1110 per piece, whichever is higher
264.	6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 and 6203 29 00	15% or Rs. 145 per piece, whichever is higher
265.	6203 31 00	15% or Rs. 815 per piece, whichever is higher
266.	6203 32 00	15% or Rs. 440 per piece, whichever is higher
267.	6203 33 00	15% or Rs. 320 per piece, whichever is higher
268.	6203 39	15% or Rs. 755 per piece, whichever is higher
269.	6203 41 00	15% or Rs. 285 per piece, whichever is higher
270.	6203 42 00	15% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
271.	6203 43 00 and 6203 49	15% or Rs. 110 per piece, whichever is higher
272.	6204 11 00	15% or Rs. 550 per piece, whichever is higher
273.	6204 12 00	15%
274.	6204 13 00	15% or Rs. 550 per piece, whichever is higher
275.	6204 19	15% or Rs. 500 per piece, whichever is higher
276.	6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 and 6204 29	15%
277.	6204 31 00	15% or Rs. 370 per piece, whichever is higher
278.	6204 32 00	15% or Rs. 650 per piece, whichever is higher
279.	6204 33 00	15% or Rs. 390 per piece, whichever is higher
280.	6204 39	15% or Rs. 350 per piece, whichever is higher
281.	6204 41	15% or Rs. 145 per piece, whichever is higher
282.	6204 42	15% or Rs. 116 per piece, whichever is higher

(1)	(2)	(3)
283.	6204 43, 6204 44 00 and 6204 49	15% or Rs. 145 per piece, whichever is higher
284.	6204 51 00	15% or Rs. 485 per piece, whichever is higher
285.	6204 52 00, 6204 53 00 and 6204 59	15%
286.	6204 61	15% or Rs. 285 per piece, whichever is higher
287.	6204 62 00	15% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
288.	6204 63 00	15%
289.	6204 69	15% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
290.	6205 10 00	15% or Rs. 200 per piece, whichever is higher
291.	6205 20 00	15% or Rs. 85 per piece, whichever is higher
292.	6205 30 00	15% or Rs. 120 per piece, whichever is higher
293.	6205 90	15% or Rs. 95 per piece, whichever is higher
294.	6206 10	15%
295.	6206 20 00	15% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
296.	6206 30 00	15% or Rs. 95 per piece, whichever is higher
297.	6206 40 00	15% or Rs. 120 per piece, whichever is higher
298.	6206 90 00	15%
299.	6207 11 00	15% or Rs. 28 per piece, whichever is higher
300.	6207 19	15% or Rs. 30 per piece, whichever is higher
301.	6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 and 6207 92 00	15%
302.	6207 99	15% or Rs. 70 per piece, whichever is higher
303.	6208 11 00	15% or Rs. 80 per piece, whichever is higher
304.	6208 19	15% or Rs. 60 per piece, whichever is higher
(1)	(2)	(3)
305.	6208 21 00, 6208 22 00 and 6208 29	15%
306.	6208 91	15% or Rs. 95 per piece, whichever is higher
307.	6208 92	15% or Rs. 65 per piece, whichever is higher
308.	6208 99, 6209 and 6210 10 00	15%
309.	6210 20	15% or Rs. 365 per piece, whichever is higher

(1)	(2)	(3)
310.	6210 30	15% or Rs. 305 per piece, whichever is higher
311.	6210 40 and 6210 50 00	15% or Rs. 65 per piece, whichever is higher
312.	6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 and 6211 31 00	15%
313.	6211 32 00 and 6211 33 00	15% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
314.	6211 39 00 and 6211 41 00	15%
315.	6211 42 and 6211 43 00	15% or Rs. 135 per piece, whichever is higher
316.	6211 49 00	15%
317.	6212	15% or Rs. 30 per piece, whichever is higher
318.	6213	15%
319.	6214 10	15% or Rs. 390 per piece, whichever is higher
320.	6214 20	15% or Rs. 180 per piece, whichever is higher
321.	6214 30 00 and 6214 40 00	15%
322.	6214 90	15% or Rs. 75 per piece, whichever is higher
323.	6215	15% or Rs. 55 per piece, whichever is higher
324.	6216 and 6217	15%
325.	63 (except 6301 20 00, 6302 21 00 and 6302 31 00)	15%
326.	6301 20 00	15% or Rs. 275 per piece, whichever is higher
327.	6302 21 00	15% or Rs. 108 per kg., whichever is higher
328.	6302 31 00	15% or Rs. 96 per kg., whichever is higher
329.	64	15%
330.	65	15%
331.	66	15%
332.	67	15%
333.	68	15%
334.	69	15%
335.	70	15%
336.	71	15%
337.	72	20%

(1)	(2)	(3)
338.	73	15%
339.	74	15%
340.	7615	15%
341.	78	15%
342.	79	15%
343.	81	15%
344.	82	15%
345.	83	15%
346.	8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407 10 00, 8407 29 00, 8407 31, 8407 32, 8407 33, 8407 34, 8407 90, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456 10 00, 8456 20 00, 8456 30 00, 8456 99, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469 12 00, 8469 20, 8469 30, 8472, 8473 10 00, 8473 40, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484 and 8485	15%
347.	8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8518, 8519, 8520 10 00, 8520 32 00, 8520 33, 8520 39, 8520 90, 8521, 8522, 8523 30 00, 8524 10, 8524 32, 8524 39, 8524 51, 8524 52, 8524 53, 8524 60 00, 8524 99, 8525 10, 8525 30 00, 8525 40 00, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530	15%
348.	8531 10, 8531 80 00, 8531 90 00, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540 11, 8540 12 00, 8540 20 00, 8540 50 00, 8540 60 00, 8540 71 00, 8540 72 00, 8540 79 00, 8540 81 00, 8540 89 00, 8540 91 00, 8540 99 00, 8543 19, 8543 20, 8543 30 00, 8543 40 00, 8543 89, 8543 90 00, 8544 11, 8544 19, 8544 20, 8544 30 00, 8544 41, 8544 49, 8544 51, 8544 59, 8544 60, 8545, 8546, 8547 and 8548	15%
349.	87(except 8703, 8710 00 00 and 8711)	15%
350.	8703 and 8711	100%
351.	88 (except 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 and 8803 30 00)	15%
352.	89(except 8908 00 00)	15%
353.	9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009 12 00, 9009 22 00, 9009 30 00, 9010 10 00, 9010 50 00, 9010 60 00, 9010 90 00, 9011, 9012, 9013 10, 9013 20 00, 9013 80 90, 9013 90 90, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020 00 00, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9027 10 00, 9027 40 00, 9027 90, 9028, 9029, 9030 10 00, 9030 20 00, 9030 31 00, 9030 39, 9030 83 00, 9030 89, 9030 90, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 30 00, 9031 49 00, 9031 80 00, 9031 90 00, 9032 and 9033 00 00	15%
354.	91	15%
355.	92	15%

(1)	(2)	(3)
356.	93	15%
357.	94	15%
358.	95	15%
359.	96	15%
360.	97(except 9704)	15%
361.	98 (except 9803 00 00)	15%
362.	9803 00 00	100%

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

[V. Sivasubramanian]

Deputy Secretary to the Government of India

अधिसूचना

सं० 14 / 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

सा.का.नि. 112(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/ 2004 - सीमाशुल्क, तारीख 12 जनवरी, 2004 के, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 38(अ), 12 जनवरी, 2004 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब वह भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

## सारणी

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5208 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
2.	5208 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%
3.	5208 42	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 37रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
4.	5208 42	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 22रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
5.	5208 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 143रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
6.	5208 52	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 23रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
7.	5208 52	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 14रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
8.	5208 53	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 35रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
9.	5208 53	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 21रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
10.	5208 59	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 50रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
11.	5208 59	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो



12.	5209 31, 5209 32 या 5209 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
13.	5209 31, 5209 32 या 5209 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%
14.	5209 41	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 32रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
15.	5209 41	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
16.	5209 43	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
17.	5209 43	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 28रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
18.	5209 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
19.	5209 49	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%
20.	5209 51 या 5209 52	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
21.	5209 51 या 5209 52	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 24रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
22.	5209 59	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 38रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
23.	5209 59	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
24.	5210 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
25.	5210 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%
26.	5210 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 132रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
27.	5210 51	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 15रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
28.	5210 51	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 12रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
29.	5210 59	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 15रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
30.	5210 59	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 12रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
31.	5211 31, 5211 32 या 5211 39	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो

32.	5211 31, 5211 32 या 5211 39	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%
33.	5211 41	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 44रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
34.	5211 41	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 35रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
35.	5211 43	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 40रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
36.	5211 43	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 32रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
37.	5211 49	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
38.	5211 49	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%
39.	5211 51, 5211 52 या 5211 59	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 18रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
40.	5211 51, 5211 52 या 5211 59	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 12रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
41.	5407 42 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 60रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
42.	5407 42 00	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 36रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
43.	5407 43 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 67रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
44.	5407 43 00	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 40रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
45.	5407 44 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 58रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
46.	5407 44 00	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 35रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
47.	5407 52	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 38रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
48.	5407 52	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 23रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
49.	5407 53 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 50रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
50.	5407 53 00	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 30रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
51.	5407 61	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%





		फैब्रिक से भिन्न	हो
95.	5514 32 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 43रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
96.	5514 32 00	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 26रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
97.	5514 49 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 114रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
98.	5515 21	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 79रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
99.	5515 21	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 55रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
100.	5515 91	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 57रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
101.	5515 91	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 40रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
102.	5516 22 00 या 5516 23 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो
103.	5516 22 00 या 5516 23 00	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15%
104.	5801 10	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 210रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
105.	5801 22	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 75रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
106.	5801 22	कमरे के साज सामान के फैब्रिक से भिन्न	15% या 70रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
107.	5801 23 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 80रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
108.	5801 25 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 120रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
109.	5801 26 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 180रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
110.	5801 31 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 75रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
111.	5801 33 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
112.	5801 36	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 130रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
113.	5801 90	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 35रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो
114.	5802 30 00	कमरे के साज सामान का फैब्रिक	15% या 150रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो

115.	5802 30 00	कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक से भिन्न	15%
------	------------	--	-----

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2005 को प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए -

(1) “कमरे के साज सामान के फ़ैब्रिक” से फर्निचरों पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री या पदों या वाल हैंगिंग के रूप में कवर वाल्स के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स, वायुयानों या रेल सड़क यात्री कारों में फ़ैब्रिक कवरिंग और निरूपण भी है।

(2) ऊपर सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर मूल्यानुसार दर है जब तक कि उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

[फ़. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

(14. 1214 पुष्यमास 1926)

उपसचिव, भारत सरकार

#### Notification

No.14 /2005-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 112(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2004-Customs, dated the 12<sup>th</sup> January 2004, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 38 (E), dated the 12<sup>th</sup> January 2004, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

Table

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5208 39	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
2.	5208 39	Other than upholstery fabrics	15%
3.	5208 42	Upholstery fabrics	15% or Rs. 37 per sq. mtr., whichever is higher
4.	5208 42	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 22 per sq. mtr., whichever is higher
5.	5208 49	Upholstery fabrics	15% or Rs. 143 per kg., whichever is higher

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	5208 52	Upholstery fabrics	15% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
7.	5208 52	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 14 per sq. mtr., whichever is higher
8.	5208 53	Upholstery fabrics	15% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher
9.	5208 53	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 21 per sq. mtr., whichever is higher
10.	5208 59	Upholstery fabrics	15% or Rs. 50 per sq. mtr., whichever is higher
11.	5208 59	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
12.	5209 31, 5209 32 or 5209 39	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
13.	5209 31, 5209 32 or 5209 39	Other than upholstery fabrics	15%
14.	5209 41	Upholstery fabrics	15% or Rs. 32 per sq. mtr., whichever is higher
15.	5209 41	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
16.	5209 43	Upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
17.	5209 43	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher
18.	5209 49	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
19.	5209 49	Other than upholstery fabrics	15%
20.	5209 51 or 5209 52	Upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
21.	5209 51 or 5209 52	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 24 per sq. mtr., whichever is higher
22.	5209 59	Upholstery fabrics	15% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
23.	5209 59	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
24.	5210 39	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
25.	5210 39	Other than upholstery fabrics	15%
26.	5210 49	Upholstery fabrics	15% or Rs. 132 per kg., whichever is higher
27.	5210 51	Upholstery fabrics	15% or Rs. 15 per sq. mtr., whichever is higher
28.	5210 51	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher
29.	5210 59	Upholstery fabrics	15% or Rs. 15 per sq. mtr., whichever is higher
30.	5210 59	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher
31.	5211 31, 5211 32 or 5211 39	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
32.	5211 31, 5211 32 or 5211 39	Other than upholstery fabrics	15%
33.	5211 41	Upholstery fabrics	15% or Rs. 44 per sq. mtr., whichever is higher
34.	5211 41	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	5211 43	Upholstery fabrics	15% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
36.	5211 43	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 32 per sq. mtr., whichever is higher
37.	5211 49	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
38.	5211 49	Other than upholstery fabrics	15%
39.	5211 51, 5211 52 or 5211 59	Upholstery fabrics	15% or Rs. 18 per sq. mtr., whichever is higher
40.	5211 51, 5211 52 or 5211 59	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher
41.	5407 42 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 60 per sq. mtr., whichever is higher
42.	5407 42 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
43.	5407 43 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher
44.	5407 43 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
45.	5407 44 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 58 per sq. mtr., whichever is higher
46.	5407 44 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher.
47.	5407 52	Upholstery fabrics	15% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
48.	5407 52	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
49.	5407 53 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 50 per sq. mtr., whichever is higher
50.	5407 53 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
51.	5407 61	Other than upholstery fabrics	15%
52.	5407 69 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 60 per sq. mtr., whichever is higher
53.	5407 69 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
54.	5407 73 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 60 per sq. mtr., whichever is higher
55.	5407 73 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
56.	5407 74 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
57.	5407 74 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
58.	5407 82	Upholstery fabrics	15% or Rs. 42 per sq. mtr., whichever is higher
59.	5407 82	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
60.	5407 83 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher
61.	5407 83 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
62.	5407 84	Upholstery fabrics	15% or Rs. 38 per sq. mtr., whichever is higher
63.	5407 84	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
64.	5407 92 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher



(1)	(2)	(3)	(4)
65.	5407 92 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
66.	5407 93 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 45 per sq. mtr., whichever is higher
67.	5407 93 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 27 per sq. mtr., whichever is higher
68.	5407 94 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 67 per sq. mtr., whichever is higher
69.	5407 94 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
70.	5408 22	Upholstery fabrics	15% or Rs. 45 per sq. mtr., whichever is higher
71.	5408 22	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 27 per sq. mtr., whichever is higher
72.	5408 23 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 47 per sq. mtr., whichever is higher
73.	5408 23 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher
74.	5408 24	Upholstery fabrics	15% or Rs. 87 per sq. mtr., whichever is higher
75.	5408 24	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 52 per sq. mtr., whichever is higher
76.	5512 19	Upholstery fabrics	15% or Rs. 42 per sq. mtr., whichever is higher
77.	5512 19	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
78.	5512 29	Upholstery fabrics	15% or Rs. 47 per sq. mtr., whichever is higher
79.	5512 29	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher
80.	5512 99	Upholstery fabrics	15% or Rs. 54 per kg., whichever is higher
81.	5513 21 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 107 per kg., whichever is higher
82.	5513 23 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 125 per kg., whichever is higher
83.	5513 23 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
84.	5513 39 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 125 per kg., whichever is higher
85.	5513 39 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
86.	5513 41 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
87.	5513 41 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 15 per sq. mtr., whichever is higher
88.	5514 21 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 100 per kg., whichever is higher
89.	5514 21 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher
90.	5514 22 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 100 per kg., whichever is higher
91.	5514 23 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 114 per kg., whichever is higher
92.	5514 29 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 121 per kg., whichever is higher
93.	5514 31 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 64 per sq. mtr., whichever is higher
94.	5514 31 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 45 per sq. mtr., whichever is higher
95.	5514 32 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 43 per sq. mtr., whichever is higher

(1)	(2)	(3)	(4)
96.	5514 32 00	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 26 per sq. mtr., whichever is higher
97.	5514 49 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 114 per kg., whichever is higher
98.	5515 21	Upholstery fabrics	15% or Rs. 79 per sq. mtr., whichever is higher
99.	5515 21	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 55 per sq. mtr., whichever is higher
100.	5515 91	Upholstery fabrics	15% or Rs. 57 per sq. mtr., whichever is higher
101.	5515 91	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
102.	5516 22 00 or 5516 23 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
103.	5516 22 00 or 5516 23 00	Other than upholstery fabrics	15%
104.	5801 10	Upholstery fabrics	15% or Rs. 210 per sq. mtr., whichever is higher
105.	5801 22	Upholstery fabrics	15% or Rs. 75 per sq. mtr., whichever is higher
106.	5801 22	Other than upholstery fabrics	15% or Rs. 70 per sq. mtr., whichever is higher
107.	5801 23 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 80 per sq. mtr., whichever is higher
108.	5801 25 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 120 per sq. mtr., whichever is higher
109.	5801 26 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 180 per sq. mtr., whichever is higher
110.	5801 31 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 75 per sq. mtr., whichever is higher
111.	5801 33 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per sq. mtr., whichever is higher
112.	5801 36	Upholstery fabrics	15% or Rs. 130 per sq. mtr., whichever is higher
113.	5801 90	Upholstery fabrics	15% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher
114.	5802 30 00	Upholstery fabrics	15% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
115.	5802 30 00	Other than upholstery fabrics	15%

*Explanation.*— For the purposes of this notification -

- (1) "Upholstery fabrics" means material used on furniture or used to cover walls, as curtains or wall hangings and includes fabric coverings and treatments in automobiles, airplanes or railroad passenger cars.
- (2) The rate specified in column (4) of the Table above is *ad valorem* rate unless otherwise specified therein.

[F No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

(V. Sivasubramanian)

Deputy Secretary to the Government of India

अधिसूचना

सं० 15 / 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन 1926 (शक)

सा.का.नि. 113(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जो -

(क) जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से ; और

(ख) जहां शुल्क की अधिमानी दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है,

छूट देती है ।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर मूल्यानुसार दर है जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए ।

सारणी

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	मानक दर	अधिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0806 20	100%	90%
2.	0907	35%	35%
3.	2504	15%	5%
4.	2917 37 00 और 2933 71 00	15%	10%
5.	2936	15%	14%
6.	2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00	15%	10%
7.	2941	15%	14%
8.	30 ( 3005 और 3006 के सिवाय)	15%	10%
9.	3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00	15%	10%
10.	3801 10 00, 3802 10 00 और 3812 10 00	15%	10%
11.	3815 11 00 और 3815 12	15%	5%

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

Notification  
No. 15/2005-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005  
10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 113(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975), specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of —

- (a) the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable; and
- (b) the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

*Explanation.*— For the purposes of this notification, the rate specified in column (3) or column(4) is the *ad valorem* rate unless otherwise specified.

Table

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Standard rate	Preferential rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0806 20	100%	90%
2.	0907	35%	35%
3.	2504	15%	5%
4.	2917 37 00 and 2933 71 00	15%	10%
5.	2936	15%	14%
6.	2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 and 2939 59 00	15%	10%
7.	2941	15%	14%
8.	30 (except 3005 and 3006)	15%	10%
9.	3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00	15%	10%
10.	3801 10 00, 3802 10 00 and 3812 10 00	15%	10%
11.	3815 11 00 and 3815 12	15%	5%

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 16/2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 114(अ) .—** केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 136/90-सीमाशुल्क, तारीख 20 मार्च, 1990 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 366 (अ), तारीख 20 मार्च, 1990, द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्तंभ (2) में, दोनों स्थानों पर प्रविष्टियों के लिए, “35% मूल्यानुसार” रखा जाएगा।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं० 336/1990-सीमाशुल्क, तारीख 20 मार्च, 1990, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 33/2004-सीमाशुल्क(एन.टी.), तारीख 3 फरवरी, 2004 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 90(अ), तारीख 3 फरवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification

No. 16/2005- Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 114(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/90-Customs, dated the 20th March, 1990 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 366 (E), dated the 20th March, 1990, namely:-

In the said notification, in the Table, in column (2), for the entries, at both the places, the entries “35% *ad valorem*” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 366 (E), dated the 20th March, 1990 and was last amended by notification No. 33/2004-Customs (N.T.), dated the 3<sup>rd</sup> February, 2004 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 90 (E), dated the 3<sup>rd</sup> February, 2004.

अधिसूचना

सं० 17/2005-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 115(अ) .—** केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 128 की उपधारा (3) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की अनुसूची के शीर्ष 0902 के अधीन आने वाली चाय और चाय अपशिष्ट को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

## Notification

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

No. 17/2005-Customs

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 115(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (3) of section 128 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tea and tea waste from the whole of the additional duty of customs leviable under sub-section (1) of section 128 of the said Finance Act.

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

सं० 18/2005-सीमाशुल्क

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 116(अ).**— केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन						
(1)	(2)	(3)						
1.	सं.50/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा.का.नि. 302 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1996]	उक्त अधिसूचना में, “ मंत्रालय या विभाग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत नई सहस्राब्दी भारतीय तकनीकी आत्मउद्योगी नेतृत्व” शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, “ मंत्रालय या विभाग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद्” शब्द रखे जाएंगे।						
2.	सं.25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 [सा.का.नि. 290 (अ) तारीख 2 जून, 1998]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :- <table border="1"> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr> <tr> <td>“ 69</td><td>कोई अध्याय</td><td>ऊपर क्रम सं. 1 से 68 पर विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित इस शर्त के अधीन रहते हुए सभी माल के आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 1996 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।”</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	“ 69	कोई अध्याय	ऊपर क्रम सं. 1 से 68 पर विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित इस शर्त के अधीन रहते हुए सभी माल के आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 1996 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।”
(1)	(2)	(3)						
“ 69	कोई अध्याय	ऊपर क्रम सं. 1 से 68 पर विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित इस शर्त के अधीन रहते हुए सभी माल के आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 1996 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।”						
3.	सं.69/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 [सा.का.नि. 411 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2004]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 15 और 16 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।						

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण :

(1) मूल अधिसूचना सं.50/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 108/2003-सीमाशुल्क, तारीख 14 जुलाई, 2003 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 544(अ), तारीख 14 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(2) मूल अधिसूचना सं.25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 20/2001-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 119(अ), तारीख 1 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(3) मूल अधिसूचना सं.69/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 411(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**Notification**  
No. 18 /2005-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005  
10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 116(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 91 and section 94 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

S.No.	Notification No. and date	Amendments						
(1)	(2)	(3)						
1	No. 50/96-Customs, dated the 23 <sup>rd</sup> July, 1996 [G.S.R. 302(E), dated the 23 <sup>rd</sup> July 1996]	In the said notification, for the words "Ministry or Department or Council of Scientific and Industrial Research under the New Millennium Indian Technology Leadership Initiative Scheme", wherever they occur, the words "Ministry or Department or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Medical Research or Indian Council of Agriculture Research or University Grants Commission or Defence Research and Development Organisation or All India Council for Technical Education" shall be substituted.						
2.	No.25/98-Customs, dated the 2nd June, 1998 [G.S.R. 290 (E), dated the 2nd June, 1998]	In the said notification, in the Table, after S.No.68 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be added, namely:- <table border="1"> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr> <tr> <td>"69.</td><td>Any chapter</td><td>All goods required for the manufacture of goods specified against S.No. 1 to 68 above, subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996."</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	"69.	Any chapter	All goods required for the manufacture of goods specified against S.No. 1 to 68 above, subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996."
(1)	(2)	(3)						
"69.	Any chapter	All goods required for the manufacture of goods specified against S.No. 1 to 68 above, subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996."						
3.	69/2004-Customs dated the 9 <sup>th</sup> July 2004 [G.S.R.411 (E), dated the 9 <sup>th</sup> July 2004]	In the said notification, in the Table, against S.Nos. 15 and 16, the entries in column (2) shall be omitted.						

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

## Note:

- (1) The principal notification No. 50/96-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.302 (E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996 and was last amended by notification No. 108/2003-Customs, dated the 14<sup>th</sup> July 2003 and published vide number G.S.R 544 (E) dated the 14<sup>th</sup> July 2003.
- (2) The principal notification No. 25/98-Customs dated the 2<sup>nd</sup> June 1998, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.290 (E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1998 and was last amended by notification No. 20/2001-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2001 and published vide number G.S.R. 119(E) dated the 1<sup>st</sup> March, 2001.
- (3) The principal notification 69/2004-Customs, dated the 9<sup>th</sup> July 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.411 (E), dated the 9<sup>th</sup> July 2004.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

सं० 19/ 2005-सीमाशुल्क

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

स सा.का.नि. 117(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा, जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारत में नीचे सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित माल के विक्रय या क्रय या परिवहन पर उद्ग्रहणीय विक्रय कर, मूल्यवर्धित कर, स्थानीय कर और अन्य करों या प्रभारों को ध्यान में रखते हुए यह निदेश देती है कि ऐसा या उसी प्रकार का माल, जब भारत में आयात किया जाए, मूल्यानुसार चार प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क का दायी होगा।

## सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/1998-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 में विनिर्दिष्ट माल।
2.	भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 की सूची क में विनिर्दिष्ट माल
3.	भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 की क्रम सं. 84, 86, 116, 176, 294, 296 और 300क के सामने विनिर्दिष्ट माल
4.	अधिसूचना सं. 21/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में विनिर्दिष्ट माल
5.	अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में विनिर्दिष्ट माल
6.	अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में विनिर्दिष्ट माल

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव



**Notification**

No. 19/2005- Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 117(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and having regard to sales tax, value added tax, local tax and other taxes or charges leviable on sale or purchase or transportation of such or like goods in India, hereby directs that the goods specified in column (2) of the Table below, when imported into India, shall be liable to an additional duty at the rate of four per cent. *ad valorem*.

Table

S.No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Goods specified in notification No. 25/98-Customs, dated the 2nd June, 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 290(E), dated the 2nd June, 1998.
2.	Goods specified in List A of notification No. 25/99-Customs, dated the 28th February, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1999.
3.	Goods specified against S.Nos. 84, 86, 176, 294, 296 and 300A of notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002.
4.	Goods specified in notification No. 21/2005-Customs, dated the 1st March, 2005
5.	Goods specified in notification No. 24/2005-Customs, dated the 1st March, 2005
6.	Goods specified in notification No. 25/2005-Customs, dated the 1st March, 2005

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

सं० 20/ 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सं.का.नि. 117(अ).**— केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.19/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त धारा 91 और धारा 94 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय उतने शिक्षा उपकर से छूट देती है, जो सकल सीमाशुल्क, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 12 के अधीन उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाता है, के दो प्रतिशत की दर पर संगणित रकम और उसके अतिरिक्त, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के रूप में उसी रीति में प्रभाय किसी राशि से अधिक है, किन्तु उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(क) वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा, जिसे अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल प्राप्त है,

यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क ;

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क ;

(ग) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ; और

(घ) आयातित माल पर शिक्षा शुल्क ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

#### Notification

No. 20/2005-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 118(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sections 91 and 94 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (2) of the Table in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 19/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, when imported into India, from so much of the Education Cess leviable thereon under the said sections 91 and 94, which is in excess of the amount calculated at the rate of two per cent. of the aggregate of duties of customs which are levied and collected by the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue), under section 12 of the said Customs Act, and any sum chargeable on such goods under any other law for the time being in force, in addition to, and in the same manner as, a duty of customs, but not including —

- (a) the additional duty referred to in sub-section (5) of section 3 of the said Customs Tariff Act, as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law;
- (b) the safeguard duty referred to in sections 8B and 8C of the said Customs Tariff Act;
- (c) the anti-dumping duty referred to in section 9A of the said Customs Tariff Act; and
- (d) the Education Cess on imported goods.

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

#### अधिसूचना

सं० 21/ 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 119(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, मोबाइल हैंडसेटों के जिनके अंतर्गत सेल्यूलर फोन भी हैं, पूर्ण, संघटकों, उपसाधनों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**Notification**  
No. 21/2005- Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005  
10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 119(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts parts, components and accessories of mobile handsets including cellular phones, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Customs Tariff Act subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996.

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**अधिसूचना**  
सं० 22/ 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.  
10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 120(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 161 (अ), तारीख 28 फरवरी, 1999, द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (i) क्रम सं० 27 के सामने स्तंभ (2), में प्रविष्टियों के स्थान पर, “28,32,38” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;
- (ii) क्रम सं० 44 के सामने स्तंभ (3), में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—  
“28 माइक्रॉन या उससे कम मोटाई की समतल प्लास्टिक फिल्म (पोलीस्टरीन फिल्म से भिन्न), 26 माइक्रॉन या उससे कम मोटाई की धातवीकृत प्लास्टिक फिल्म”  
स्पष्टीकरण.— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘समतल प्लास्टिक फिल्म’ के अन्तर्गत द्विअक्षीय अभिविन्यस्त पॉलीप्रोपलीन (बीओपीपी) फिल्म भी हैं ;
- (iii) क्रम सं० 62 के सामने स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, “39, 74, 76” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;
- (iv) क्रम सं० 112 के सामने स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, “39, 72, 74, 76, 85” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;
- (v) क्रम सं० 132 के सामने स्तंभ (3) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—  
“04 मि.मी. से 1.2 मि.मी. व्यास का सोल्डर लेपित तापानुशीलित तांबा तार (एससीए)” ;
- (vi) क्रम सं० 133 के सामने स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, “79,80” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;
- (vii) क्रम सं० 145 के सामने स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, “69, 75, 76, 81” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;
- (viii) क्रम सं० 168 के सामने स्तंभ (3) में, “डीबीई सालवेंट” शब्दों और अक्षर के स्थान पर, “डाइब्यूटाइल ईथर/डाइ-एन-ब्यूटाइल ईथर सालवेंट” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ix) क्रम सं० 190 के सामने स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “69, 70, 71, 74, 85” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;
- (x) क्रम सं० 200 के सामने स्तंभ (3) में, “एसलिक अम्ल” अक्षरों के स्थान पर, “एजेलिक अम्ल” शब्द रखे जाएंगे ;

- (xi) क्रम सं० 222 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-  
 पॉलिस्टर/पॉलिस्टीरीन लेटेक्स ; कांच कपड़ा टेप ; एक्रायस ; कोबाल्ट नीला” ;
- (xii) क्रम सं० 224 के सामने स्तंभ (3) में, “स्टेनलेस स्टील 304/1310/316/420 श्रेणी” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “स्टेनलेस स्टील 304/310/316/420 श्रेणी” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं० 25 / 1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० सं० 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 29/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि.420(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

#### Notification

No. 22 /2005-Customs

New Delhi, dated the 1st March, 2005

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 120(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/99-Customs, dated the 28th February, 1999 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1999, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S.No. 27, for the entry in column (2), the entries “28, 32, 38” shall be substituted;
- (ii) against S.No. 44, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-  
 “Plain plastic films (other than polystyrene film) of thickness 26 microns or below, metallised plastic films of thickness 26 microns or below

Explanation.- For the removal of doubts, ‘Plain Plastic Film’ includes biaxially oriented poly propylene (BOPP) film”;

- (iii) against S.No. 62, for the entries in column (2), the entries “39, 74, 76” shall be substituted;
- (iv) against S.No. 112, for the entry in column (2), the entries “39, 72, 74, 76, 85” shall be substituted;
- (v) against S.No. 132, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-  
 “Solder Plated Annealed Copper Wire (SCA) of diameter 0.4 mm to 1.2 mm”;
- (vi) against S.No. 133, for the entry in column (2), the entries “79, 80” shall be substituted;
- (vii) against S.No. 145, for the entry in column (2), the entries “69, 75, 76, 81” shall be substituted;

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

- (viii) against S.No. 168, in column (3), for the letters and word "DBE Solvent", the words "Dibutyl ether/Dian-butyl ether Solvent" shall be substituted;
- (ix) against S.No. 190, for the entry in column (2), the entries "69,70,71,74,85" shall be substituted;
- (x) against S.No. 200, in column (3), for the words "Acelaic acid", the words "Azelaic acid" shall be substituted;
- (xi) against S.No. 222, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-  
"Polyester/polystyrene latex, glass cloth tape, acry emulsion, cobalt blue";
- (xii) against S.No. 224, in column (3), for the words and figures "Stainless Steel 304/1310/316/420 grades", the words and figures "Stainless Steel 304/310/316/420 grades" shall be substituted;

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.- The principal notification number 25/99-Customs, dated the 28th February, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number 161(E), dated the 28th February, 1999, and was last amended vide notification number 70/2004-Customs, dated the 9th July, 2004 and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number 412(E), dated 9th July, 2004.

अधिसूचना

सं० 23/ 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 121(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो सा०का०नि० 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में-

(i) क्रम सं० 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"25	सीडी/सीडी-आर/डीवीडी/डीवीडी-आर विनिर्माण मशीनरी या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों से युक्त प्रतिकृति लाइने, मेटलाइजर, यूवी बौन्डिंग केन्द्र, निरीक्षण केन्द्र, मुद्रण मशीनें (स्क्रीन और आफसेट), लेजर बिम रिकार्डर के साथ मास्टरिंग उपस्कर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपस्कर, स्टांप पर पंच और बैक पौलिसिंग उपस्कर	सीडी/सीडी-आर/डीवीडी/डीवीडी-आर";

(ii) क्रम सं. 30 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्विच, टेप डेक मैकेनिज्म, डीसी माइक्रोमोटर, लाउडस्पीकर्स";

(iii) क्रम सं. 33 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“ डीसी माइक्रोमोटर”;

(iv) क्रम सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“34	सीएनसी वायर कट मशीनें	रेसिस्टर, कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, कनेक्टर, रिले, स्विच, टेप डेक मैकेनिज्म, डीसी माइक्रोमोटर, लाउडस्पीकर”;

(v) क्रम सं. 38 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“ स्विच”;

(vi) क्रम सं. 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“61	इम्पल्स वोल्टेज टेस्टर, मेगहम मीटर	कैपेसिटर, कैपेसिटर ग्रेड फिल्म
62	चुंबकों के लिए चुंबककारक	टेप डेक मैकेनिज्म, डीसी माइक्रोमोटर, लाउडस्पीकर
63	अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन	पीसीबी असेम्बलीज
64	फ्यूज कैप सोल्डरिंग/ टिनिंग मशीन चिह्नक सुविधा सहित या उसके बिना, फ्यूज असेम्बली मशीन, सॉल्टिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टिंग उपस्कर, फ्यूज एलिमेंट पंचिंग मशीन तराशने की सुविधा सहित या उसके बिना, फ्यूज एलिमेंट वाइंडिंग मशीन, आटो परीक्षण/निरीक्षण उपस्कर, पैकिंग सुविधा सहित या उसके बिना, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, फ्यूज के लिए चिह्नक मशीन, अल्ट्रासोनिक क्लिनिंग उपस्कर	ग्लास और कैरेमिक कार्टिज फ्यूज, ब्लैड फ्यूज, स्वचालित फ्यूज और सरफेस माउंट फ्यूज
65	मार्किंग मशीन	कैपेसिटर रजिस्टर
66	ले अप केन्द्र, ब्लैक आक्साइड सिस्टम, केम केन्द्र, कॉपर फायल टेस्टर, कॉपर फायल थिकनेस टेस्टर, क्रिस्टल फार्मेशन यूनिट, डेन्सिटीमीटर, डिजिटल होल चेक गेज, डिजिटल वी - स्कोर चेकर, इलैक्ट्रोलेस निकिल गोल्ड और इंटेक लाइन, कॉपर रिकवरी सिस्टम, फ्लूडाइज्ड सैंड बाथ, फ्लूक मल्टीमीटर, स्वचालित फिल्म प्रोसेसर, गोल्ड प्लेटिंग लाइन, डिसोल्डरिंग/सोल्डरिंग केन्द्र, हाइड्रोलिक डेपिनर, इमर्जन टिन लाइन, इम्पिडेंस टेस्टर, आद्रता/तापमान चैंबर, आयोनिक कंटामिनेशन टेस्टर, डिस्ट्रिब्यूटेड न्यूमरिकल कंट्रोल सिस्टम (I एम डीएनसी)	मुद्रित सर्किट बोर्ड
67	इन्सर्ट मोल्डिंग मशीन, 3 डी कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम	रिले और स्विच”।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 71/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 2 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किया गया था।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**Notification**

No. 23 /2005-Customs

New Delhi, dated the 1st March, 2005

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 121(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) for S. No. 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"25.	CD/CD-R/DVD/DVD-R manufacturing machinery or replication lines comprising of injection moulding machines, metallisers, UV bonding station, inspection station, printing machines (screen and offset), mastering equipment with laser beam recorder, electroplating equipment, stamper punch and back polishing equipment	CD/CD-R/ DVD/DVD-R";

- (ii) against S.No. 30, in column(3), after the entries, the following shall be inserted, namely:-  
"switches, tape deck mechanism, DC micromotors, loudspeakers";

- (iii) against S.No. 33, in column(3), after the entries, the following shall be inserted, namely:-  
"DC micromotors";

- (iv) for S.No. 34 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"34.	CNC wire cut machines	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches, tape deck mechanism, DC micromotors, loudspeakers

- (v) against S.No. 38, in column(3), after the entries, the following shall be inserted, namely:-  
"switches";

- (vi) after S.No. 60 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
61.	Impulse voltage tester; megohm meter	Capacitor, capacitor grade Film
62.	Magnetiser for magnets	Tape deck mechanism, DC micromotor, loudspeakers

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 63. | Ultrasonic plastic welding machine   | PCB assemblies   |
| 64. | Fuse cap soldering / Tinning machine with or without marking facility, fuse assembly machine, sorting machine, electronic load-testing equipment, fuse element punching machine with or without skiving facility, fuse element winding machine, auto testing/inspection equipment with or without packing facility, ultrasonic welding machine, marking machine for fuses, ultrasonic cleaning equipment   | Glass and ceramic cartridge fuses, blade fuses, automotive fuses and surface mount fuses |
| 65. | Masking Machine  | Capacitor, resistor  |
| 66. | Lay up station, black oxide system, cam station, copper foil tester, copper foil thickness tester, crystal formation unit, densitometer, digital hole check guage, digital V- score checker, electroless nickel gold & entek line, copper recovery system, fluidised sandbath, fluke multimeter, automatic film processor, gold plating line, desoldering/soldering station, hydraulic depinner, immersion tin line, impedance tester, humidity/ temperature chamber, ionic contamination tester, distributed numerical controlled system (Im DNC) | Printed Circuit Boards   |
| 67. | Insert moulding machine, 3D co-ordinate measuring system   | Relays and switches".  |

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.- The principal notification number No. 25/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2002, and was last amended vide notification number 71/2004-Customs, dated the 9th July, 2004 and published in the Gazette of India vide number G.S.R. 413(E), dated the 9th July, 2004.

अधिसूचना

सं० 24/ 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

सा.का.नि. 122(अ) 1962.— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले और नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाला माल
1.	3818 00
2.	8456 91 00, 8469 11 00, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30, 8473 50 00
3.	8517, 8520 20 00, 8523 (टैरिफ मद 8523 30 00 के अधीन आने वाले माल को छोड़कर), 8524 31, 8524 40, 8524 91, 8525 20, 8531 20 00, 8532, 8533, 8534 00 00, 8541, 8542, 8543 11 00, 8543 81 00, 8544 70
4.	9009 11 00, 9009 21 00, 9009 91 00, 9009 92 00, 9009 93 00, 9009 99 00, 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00, 9013 80 10, 9013 90 10, 9026, 9027 20 00, 9027 30, 9027 50, 9027 80, 9030 40 00, 9030 82 00, 9031 41 00
5.	ऊपर क्रम सं.1 से 4 के अंतर्गत आने वाले माल के विनिर्माण हेतु सभी माल परंतु यह कि आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 1996 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव



**Notification**

No. 24 /2005-Customs

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 122(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following goods, falling under the heading, sub-heading or tariff-item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, namely:-

**Table**

S.No.	Goods falling under Heading, Sub-heading or Tariff item
(1)	(2)
1.	3818 00
2.	8456 91 00, 8469 11 00, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30, 8473 50 00.
3.	8517, 8520 20 00, 8523 (other than those falling under tariff item 8523 30 00), 8524 31, 8524 40, 8524 91, 8525 20, 8531 20 00, 8532, 8533, 8534 00 00, 8541, 8542, 8543 11 00, 8543 81 00, 8544 70
4.	9009 11 00, 9009 21 00, 9009 91 00, 9009 92 00, 9009 93 00, 9009 99 00, 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00, 9013 80 10, 9013 90 10, 9026, 9027 20 00, 9027 30, 9027 50, 9027 80, 9030 40 00, 9030 82 00, 9031 41 00
5.	All goods for the manufacture of goods covered by S.Nos. 1 to 4 above, provided that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996.

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 25/ 2005-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 123(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब वह भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष उपशीर्ष टैरिफ मद	या या	माल का वर्णन
(1)	(2)		(3)
1.	8472 90		स्वचालित टैलर मशीन
2.	8473 10 00		बर्ड प्रोसेसिंग मशीन के मुद्रित परिपथ समंजन
3.	8473 40		स्वचालित टैलर मशीन के मुद्रित परिपथ समंजित
4.	8504 40		स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के लिए स्थैतिक संपरिवर्तित और उनकी यूनिते, और दूरसंचार उपकरण

5.	8504 50	स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के लिए विद्युत प्रदाय के लिए अन्य प्रेरक और उनकी यूनिटें, और दूरसंचार उपकरण
6.	8504 90	स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के लिए स्थैतिक संपरिवर्तित्र के लिए मुद्रित परिपथ समंजन और उनकी यूनिटें, और दूरसंचार उपकरण ; स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीनों के लिए विद्युत प्रदाय के लिए अन्य प्रेरक और उनकी यूनिटें और दूरसंचार उपकरण
7.	8518 10 00	दूरसंचार के उपयोग के लिए, 300 हर्ट्ज से 3, 4 किलो हर्ट्ज रेंज की फ्रिक्वेंसी रखने वाले माइक्रोफोन, जिनका व्यास 10 मिलीमीटर से अधिक नहीं है और ऊंचाई 3 मिलीमीटर से अधिक न हो
8.	8518 29 00	दूरसंचार के उपयोग के लिए, 300 हर्ट्ज से 3,4 किलो हर्ट्ज रेंज की फ्रिक्वेंसी रखने वाले हाउजिंग के बिना लाउडस्पीकर जिनका व्यास 50 मिलीमीटर से अधिक न हो
9.	8518 30 00	लाइन टेलीफोन हैंड सेट
10.	8518 90 00	मुद्रित परिपथ समंजन के लिए- (i) दूरसंचार के उपयोग के लिए, 300 हर्ट्ज से 3,4 किलो हर्ट्ज रेंज की फ्रिक्वेंसी रखने वाले माइक्रोफोन, जिनका व्यास 10 मिलीमीटर से अधिक नहीं है और ऊंचाई 3 मिलीमीटर से अधिक न हो ; (ii) दूरसंचार के उपयोग के लिए, 300 हर्ट्ज से 3,4 किलो हर्ट्ज रेंज की फ्रिक्वेंसी रखने वाले लाउडस्पीकर जिनका व्यास 50 मिलीमीटर से अधिक न हो ; या (iii) लाइन टेलीफोन हैंड सेट
11.	8522 90 00	टेलीफोन आनसरिंग मशीन के लिए मुद्रित परिपथ समंजन
12.	8525 10	रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए उपकरण से भिन्न प्रसारण उपकरण
13.	8525 40 00	अंकीय स्थिर प्रतिबिम्ब वीडियो कैमरे
14.	8527 90	कालिंग, अलर्टिंग या पेजिंग के लिए पोर्टेबल रिसीवर
15.	8529 10	रेडियो टेलीफोनी या रेडियो टेलीग्राफी के लिए उपकरणों के साथ उपयोग किए जाने वाली किस्म के एरियल और एंटीना
16.	8529 90 90	निम्नलिखित मालों के पुर्जे (जिसके अन्तर्गत पाप्यूलेटेड पीसीबी भी हैं), अर्थात् :- (i) अंकीय स्थिर प्रतिबिम्ब वीडियो कैमरा ; (ii) रेडियो या टेलीविजन के लिए प्रसारण उपकरणों से भिन्न प्रसारण उपकरण ; (iii) प्रसारण उपकरणों से लगे अभिग्रहण उपकरण ; या (iv) कालिंग, अलर्टिंग या पेजिंग के लिए पोर्टेबल रिसीवर ।
17.	8531 80 00	स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन और दूरसंचार उपकरणों में उपयोग किए जाने वाली किस्म के सपाट पैनल प्रदर्श
18.	8531 90 00	द्रव क्रिस्टल युक्तियों (एलसीडी) या प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लगे हुए प्रदर्श पैनलों के भाग
19.	8536 50	इनपुट और आउटपुट परिपथ युग्मित प्रकाश समरूप संयोजित इलेक्ट्रॉनिक ए.सी. स्विच (रोधी थाइरिस्टर ए.सी. स्विच)
20.	8536 50	इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसके अन्तर्गत तापरोधी इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसमें कोई ट्रांजिस्टर और लॉजिक चिप (चिप तकनीक का चिप) 1000 वोल्ट से अनाधिक किसी वोल्ट के लिए

21.	8536 50	11 एम्पियर से अनाधिक विद्युत के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्नेप क्रिया विधि स्विच, 250 वोल्ट से अनाधिक वोल्टेज के लिए 5 एम्पियर से कम रेटिंग कान्टैक्ट के लिए स्विच
22.	8536 69	द्विअक्षीय केबल और मुद्रित परिपथ के लिए प्लग और सॉकेट
23.	8536 90	तार और केबल के लिए संबंधन और संपर्क एलीमेंट
24.	8536 90	वफर प्रोबर
25.	8538 90 00	शीर्ष 8536 के निम्नलिखित मालों के लिए मुद्रित परिपथ समंजन, अर्थात् :- (1) इनपुट और आउटपुट परिपथ युग्मित प्रकाश समरूप संयोजित इलेक्ट्रॉनिक ए.सी. स्विच (रोधी थाइरिस्टर ए.सी. स्विच) ; (2) इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसके अन्तर्गत तापरोधी इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसमें कोई ट्रांजिस्टर और लॉजिक चिप (चिप तकनीक का चिप) 1000 वोल्ट से अनाधिक किसी वोल्ट के लिए ; (3) 11 एम्पियर से अनाधिक विद्युत के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्नेप क्रियाविधि स्विच, 250 वोल्ट से अनाधिक वोल्टेज के लिए 5 एम्पियर से कम रेटिंग कान्टैक्ट के लिए स्विच ; (4) द्विअक्षीय केबल और मुद्रित परिपथ के लिए प्लग और सॉकेट ; (5) तार और केबल के लिए संबंधन और संपर्क एलीमेंट ; (6) वफर प्रोबर
26.	8543 89	अनुवाद और शब्दकोष कृत्यों सहित इलेक्ट्रिक मशीन
27.	8543 90 00	निम्नलिखित के लिए मुद्रित परिपथ समंजन- (i) सामीप्य कार्ड और टैग ; (ii) अनुवाद और शब्दकोष कृत्यों सहित इलेक्ट्रिक मशीन ।
28.	8544 41, 8544 49	विद्युत चालक, 80 वोल्ट से अनाधिक वोल्टता के लिए, किसी किस्म के दूरसंचार के उपयोग के लिए
29.	8544 51	विद्युत चालक, जो 80 वोल्ट से अधिक वोल्टता के लिए, किन्तु 1000 वोल्ट से अधिक न हों और जो संबंधक से लगे हैं, किसी किस्म के दूरसंचार के उपयोग के लिए
30.	9017 10 00, 9017 20	ड्राफ्टिंग या रेखण मशीनें
31.	9017 90 00	शीर्ष 9017 की ड्राफ्टिंग या रेखण मशीनों के लिए मुद्रित परिपथ समंजन
32.	9027 90	शीर्ष 9027, गैस या धूम्र विश्लेषण उपकरण और माइक्रोटोम से भिन्न के लिए उत्पादों के भाग और उपसाधन
33.	कोई अध्याय	उपर्युक्त क्रम सं० 1 से 32 के सामने विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण हेतु सभी माल, परंतु यह कि आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**Notification**  
No.25 /2005-Customs

New Delhi dated the 1st March, 2005  
10 Phalguna, 1926(Saka)

**G.S.R. 123(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts following the goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, namely:-

Table		
S. No.	Heading, Sub – heading or Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	8472 90	Automatic teller machines
2.	8473 10 00	Printed circuit assemblies of word processing machines
3.	8473 40	Printed circuit assemblies for automatic teller machines
4.	8504 40	Static converters for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus
5.	8504 50	Other inductors for power supplies for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus.
6.	8504 90	Printed circuit assemblies for static converters for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus; printed circuit assemblies for other inductors for power supplies for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus
7.	8518 10 00	Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter of not exceeding 10mm and height not exceeding 3mm, for telecommunication use
8.	8518 29 00	Loudspeakers, without housing, having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter of not exceeding 50 mm, for telecommunication use
9.	8518 30 00	Line telephone handsets
10.	8518 90 00	Printed circuit assemblies for – (i) microphones having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter not exceeding 10 mm. and a height not exceeding 3 mm. for telecommunication use; (ii) loud speakers, without housing, having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter not exceeding 50 mm., for telecommunication use; or (iii) line telephone handsets.
11.	8522 90 00	Printed circuit assemblies for telephone answering machines
12.	8525 10	Transmission apparatus other than apparatus for radio broadcasting or television

13.	8525 40 00	Digital still image video cameras
14.	8527 90	Portable receivers for calling, alerting or paging
15.	8529 10	Aerials or antennae of a kind used with apparatus for radio-telephony and radio-telegraphy
16.	8529 90 90	Parts (including populated PCBs) of the following goods namely :- (i) digital still image video cameras; (ii) transmission apparatus other than apparatus for radio-broadcasting or television; (iii) transmission apparatus incorporating reception apparatus; or (iv) portable receivers for calling, alerting or paging.
17.	8531 80 00	Flat panel displays of a kind used in automatic data processing machines and tele-communication apparatus
18.	8531 90 00	Parts of indicator panels incorporating liquid crystal devices(LCD) or light emitting diodes(LED)
19.	8536 50	Electronic AC switches consisting of optically coupled input and output circuits (insulated thyristor AC switches)
20.	8536 50	Electronic switches, including temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology) for a voltage not exceeding 1000 volts
21.	8536 50	Electromechanical snap-action switches for a current not exceeding 11 amperes, switches of contact rating less than 5 amperes at voltage not exceeding 250 volts
22.	8536 69	Plugs and sockets for co-axial cables and printed circuits
23.	8536 90	Connection and contact elements for wires and cables
24.	8536 90	Wafer probers
25.	8538 90 00	Printed circuit assemblies for the following goods of heading 8536, namely:- (1) electronic AC switches consisting of optically coupled input and output circuits (insulated thyristor AC switches);  (2) electronic switches, including temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology) for a voltage not exceeding 1000 volts;  (3) electro-mechanical snap-action switches for a current not exceeding 11 amperes, switches of contact rating less than 5 amperes at voltage not exceeding 250 volts; (4) plugs and sockets for co-axial cables and printed circuits; (5) connection and contact elements for wires and cables; (6) wafer probers
26.	8543 89	Electrical machines with translation or dictionary functions

27.	8543 90 00	Printed circuit assemblies for - (i) proximity cards and tags; (ii) electrical machines with translation or dictionary functions.
28.	8544 41, 8544 49	Electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, of a kind used for telecommunications
29.	8544 51	Electric conductors, for a voltage exceeding 80 V, but not exceeding 1000 V, fitted with connectors, of a kind used for telecommunications
30.	9017 10 00, 9017 20	Drafting or drawing machines
31.	9017 90 00	Printed circuit assemblies for drafting or drawing machines of heading 9017
32.	9027 90	Parts and accessories of products of heading 9027, other than for gas or smoke analysis apparatus and microtomes
33.	Any Chapter	All goods for the manufacture of goods specified against S.No. 1 to 32 above, provided that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996.

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 4/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन 1926 (शक)

**सा.का.नि. 124(अ) .—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, -

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहली अनुसूची कहा गया है) के अधीन उसपर विनिर्दिष्ट उतने उत्पाद-शुल्क से जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है ; और

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् दूसरी अनुसूची कहा गया है) के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है,

छूट देती है ।

सारणी				
क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	पहली अनुसूची के अधीन दर	दूसरी अनुसूची के अधीन दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1507 से 1515	सभी माल	कुछ नहीं	—
2.	1516	सभी माल	कुछ नहीं	—
3.	1905 90 10	सभी माल	8%	—
4.	2403 10 10	सभी माल, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	2403 91 00	सभी माल, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	2403 99 90	तंबाकूयुक्त पान मसाला से भिन्न सभी माल जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	2710 11	सामान्यतया पेट्रोल के नाम से ज्ञात मोटर स्पिरिट	8% धन 5.00रु.प्रति लीटर	कुछ नहीं
8.	2710 11	सभी माल (सामान्यतया पेट्रोल के नाम से ज्ञात मोटर स्पिरिट से भिन्न)	16%	—
9.	2710 19 10	सार्वजनिक वितरण के माध्यम से अंतिम विक्रय हेतु मिट्टी का तेल	कुछ नहीं	—
10.	2711 19 30	उच्च गति डीजल (एचएसडी)	8% धन 1.25रु. प्रति लीटर	—
11.	2710 19 40	हल्का डीजल तेल	16% धन 2.50रु.प्रति लीटर	—
12.	2711 19 00	घरेलू आंतरिक उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	कुछ नहीं	—
13.	3605	दियासलाई (बंगाल लाइट से भिन्न)	12%	—
14.	7113	आभूषण की ऐसी वस्तु जिसपर ब्रांड नाम या व्यापार नाम स्वयं आभूषण की वस्तु पर अमिट रूप से चिपकाया हुआ या उत्कीर्णित है।	2%	—
15.	कोई अध्याय	शीर्ष 8432 के विद्युत टिलरों के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर प्रयुक्त पूर्ण	कुछ नहीं	—
16.	7117	सभी माल	8%	—
17.	84 या 90	निम्नलिखित सभी माल, अर्थात् :- (i) इलेक्ट्रानिक दुग्ध वसा टेस्टर ; (ii) इलेक्ट्रानिक लोस गैस-वसा (एसएनएफ) टेस्टर	8%	—

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'ब्रांड नाम या व्यापार नाम' से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम, भले ही वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिह्न जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या सूचीबद्ध शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है जो उक्त उत्पाद या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान के बारे में किसी उपदर्शन सहित या उसके बिना व्यापार के दौरान कोई संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिसे उपदर्शित किया जा सके, किसी उत्पाद के संबंध में प्रयोग किया जाता है।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**Notification**

No. 4/2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 124(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) as amended by the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table,—

- (a) from so much of the duty of excise specified thereon under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act (hereinafter referred to as the First Schedule), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table; and
- (b) from so much of the Special duty of excise leviable thereon under the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act (hereinafter referred to as the Second Schedule), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table.

Table

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate under the First Schedule	Rate under the Second Schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1507 to 1515	All goods	Nil	-
2.	1516	All goods	Nil	-
3.	1905 90 10	All goods	8%	-
4.	2403 10 10	All goods, not bearing a brand name	Nil	Nil
5.	2403 91 00	All goods, not bearing a brand name	Nil	Nil
6.	2403 99 90	All goods other than pan masala containing tobacco, not bearing a brand name	Nil	Nil
7.	2710 11	Motor spirit commonly known as petrol	8% plus Rs.5.00 per litre	Nil
8.	2710 11	All goods (other than motor spirit commonly known as petrol)	16%	-
9.	2710 19 30	High Speed Diesel (HSD)	8% plus Rs.1.25 per litre	-
10.	2711 19 00	Liquefied Petroleum Gases (LPG) for supply to household domestic consumers	Nil	-
11.	2710	Kerosene for ultimate sale through public distribution system	Nil	-
12.	2710 19 40	Light Diesel Oil	16% plus Rs.2.50 per litre	-
13.	3605	Matches (other than Bengal lights)	12%	-
14.	7113	Article of jewellery on which brand name or trade name is indelibly affixed or embossed on the articles of jewellery itself	2%	-
15.	Any Chapter	Parts used within the factory of production for manufacture of power tillers of heading 8432	Nil	-
16.	7117	All goods	8%	-
17.	84 or 90	The following goods, namely:- (i) Electronic milk fat tester; (ii) Electronic solid non-fat (SNF) tester.	8%	-



*Explanation.* - For the purposes of this notification, 'brand name or trade name' means a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 5/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

सा.का.नि. 125(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.6/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(अ) उद्देश्यिका में,-

(i) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) पांचवे परंतुक में “ 1 मई, 2005” अंकों और शब्द के स्थान पर, “ 1 मई, 2006” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) सारणी में,-

(i) क्रम सं. 32ख के सामने, स्तंभ (2) से (6) में प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं. 32ग के सामने, स्तंभ (2) से (6) में प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) क्रम सं. 32घ के सामने, स्तंभ (2) से (6) में प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) क्रम सं. 171 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (I) और मद (II) में से प्रत्येक के सामने स्तंभ (6) में प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “ 20क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं० 172क के सामने, स्तंभ (2) से (6) में प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम सं. 244 के सामने, स्तंभ (2) से (6) में प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) क्रम सं. 245 के सामने, स्तंभ (2) से (6) में प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(viii) क्रम सं० 295 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “सभी माल (सेमी-ट्रेलर के लिए 1800सीसी अधिक की क्षमता के इंजन के सड़क ट्रैक्टरों के सिवाय)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं. 303 के सामने, स्तंभ (2) से (6) में प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(इ) उपाबंध में,-

(I) शर्तों में शर्त सं० 20 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

शर्त सं०	शर्त
“20क	यह छूट शीर्ष 71.13 के आभूषणों की वस्तुओं को लागू नहीं होगी जिनपर कोई ब्रांड नाम या व्यापार नाम अमिट रूप से, यथास्थिति, चिपकाया हुआ है या उत्कीर्ण किया हुआ है।”;

(II) सूची 9 में, मद सं० (13) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (13) पवन परिचालित विद्युत जनित्र, उसके संघटक और उसके भाग जिनके अंतर्गत उसके रोटर और पवन टरबाइन नियंत्रक भी है।” ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० सं० 127(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं 56/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 जो सा.का.नि. सं.850(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किया गया है।

Notification  
No. 5/2005-Central Excise

New Delhi, dated 1<sup>st</sup> March, 2005.  
10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 125(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 127(E), dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification,-

(A) in the preamble,-

- (i) second proviso shall be omitted;
- (ii) in the fifth proviso, for the words, letters and figures, “ the 1<sup>st</sup> day of May, 2005”, the words, letters and figures “the 1<sup>st</sup> day of May, 2006”, shall be substituted;

(B) in the Table,-

- (i) against S.No. 32B, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (ii) against S.No. 32C, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (iii) against S. No. 32F, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (iv) against S.No. 171, in column (3), against both the items (I) and (II), in column (6), the entry “ 20A” shall respectively be substituted;
- (v) against S.No. 172A, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (vi) against S.No. 244, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (vii) against S.No. 245, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;
- (viii) against S.No. 295, for the entry in column (3), the entry “All goods (except road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc)” shall be substituted;

(ix) against S.No. 303, the entries in columns (2) to (6) shall be omitted;

(C) in the Annexure,-

(I) in Conditions, after Condition No.20, the following shall be inserted, namely:-

Condition No.	Conditions
"20A.	This exemption shall not be applicable to articles of jewellery of heading 7113 on which brand name or trade name is indelibly affixed or embossed on the articles of jewellery itself.";

(II) in List 9, for item 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(13). Wind operated electricity generator, its components and parts thereof including rotor and wind turbine controller."

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 127 (E), dated the 1st March, 2002, and was last amended by notification No. 56/2004-Central Excise, dated the 31<sup>st</sup> December, 2004 and published vide number G.S.R. No. 850(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2004

अधिसूचना

सं० 6/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन 1926 (शक)

**सा.का.नि. 126(अ) .—** केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के उपखंड (3) जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के उपखंड (1) के अधीन, जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2106 90 20	पान मसाला (जिसके अंतर्गत तम्बाकू नहीं है)	5.5 प्रतिशत
2.	2401	ऐसा अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू उच्छिष्ट जिसका ब्रांड नाम है।	4.2 प्रतिशत
3.	2401	ऐसा अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू उच्छिष्ट जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं

4.	2402 10 10	सिगार और तम्बाकू का चिरुट	1.6 प्रतिशत
5.	2402 10 20	तम्बाकू के सिगारिलोज	1.6 प्रतिशत
6.	2402 90 90	अन्य	1.6 प्रतिशत
7.	2403 10 10	हुक्का या गुड़ाकु तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है।	6.0 प्रतिशत
8.	2403 10 10	हुक्का या गुड़ाकु तंबाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं
9.	2403 10 90	अन्य पिए जाने वाला तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है।	6.0 प्रतिशत
10.	2403 10 90	अन्य पिए जाने वाला तंबाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं
11.	2403 91 00	“समांगीकृत” या “पुनर्निर्मित” तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है।	6.0 प्रतिशत
12.	2403 91 00	“समांगीकृत” या “पुनर्निर्मित” तंबाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं
13.	2403 99 10	चबाए जाने वाला तम्बाकू	6.0 प्रतिशत
14.	2403 99 20	ऐसी निर्मितियां जिनमें चबाए जाने वाला तम्बाकू अंतर्विष्ट है।	6.0 प्रतिशत
15.	2403 99 30	जर्दा सैटयुक्त तम्बाकू	6.0 प्रतिशत
16.	2403 99 40	स्नफ	6.0 प्रतिशत
17.	2403 99 50	स्नफ युक्त निर्मितियां	6.0 प्रतिशत
18.	2403 99 60	तंबाकू सार और सत जिसका ब्रांड नाम है।	6.0 प्रतिशत
19.	2403 99 60	तंबाकू सार और सत जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है।	कुछ नहीं
20.	2403 99 90	तम्बाकू ‘गुटका’ युक्त पान मसाला	6.0 प्रतिशत
21.	2403 99 90	सभी माल, जिसका ब्रांड नाम है	6.0 प्रतिशत
22.	2403 99 90	सभी माल, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है (तम्बाकू युक्त पान मसाला से भिन्न)	कुछ नहीं

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ‘ब्रांड नाम’ से ऐसा ब्रांड नाम, भले ही वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिह्न जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या सूचीबद्ध शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है जो उक्त उत्पाद या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान के बारे में किसी उपदर्शन सहित या उसके बिना व्यापार के दौरान कोई संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिसे उपदर्शित किया जा सके, किसी उत्पाद के संबंध में प्रयोग किया जाता है।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

## Notification

No. 6/2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 126(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-clause (3) of clause 85 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table below, falling within heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) as amended by the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005) and specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the additional duty of excise leviable under sub-clause (1) of clause 85 of the said Finance Bill, 2005, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

Table

S. No.	heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate of additional duty of excise
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2106 90 20	Pan masala (not containing tobacco)	5.5%
2.	2401	Un-manufactured tobacco and tobacco refuse, bearing a brand name	4.2%
3.	2401	Un-manufactured tobacco and tobacco refuse, not bearing brand name	Nil
4.	2402 10 10	Cigars and cheroots of tobacco	1.6%
5.	2402 10 20	Cigarillos of tobacco	1.6%
6.	2402 90 90	Other	1.6%
7.	2403 10 10	Hookah or gudaku tobacco, bearing a brand name	6.0%
8.	2403 10 10	Hookah or gudaku tobacco, not bearing a brand name	Nil
9.	2403 10 90	Other smoking tobacco, bearing a brand name	6.0%
10.	2403 10 90	Other smoking tobacco, not bearing a brand name	Nil
11.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, bearing a brand name	6.0%
12.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, not bearing a brand name	Nil
13.	2403 99 10	Chewing tobacco	6.0%
14.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco	6.0%
15.	2403 99 30	Jarda Scented tobacco	6.0%
16.	2403 99 40	Snuff	6.0%
17.	2403 99 50	Preparations containing snuff	6.0%
18.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence, bearing a brand name	6.0%
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence, not bearing a brand name	Nil
20.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco 'gutkha'	6.0%
21.	2403 99 90	All goods, bearing a brand name	6.0%
22.	2403 99 90	All goods, not bearing a brand name (other than pan masala containing tobacco)	Nil

**Explanation.**— For the purposes of this notification, 'brand name or trade name' means a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.  
Deputy Secretary to the Government of India

अधिसूचना

सं० 7/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 127(अ).—** केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 157 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, चाय और चाय अपशिष्ट को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

Notification

No. 7/2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 127(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tea and tea waste from the whole of the additional duty of excise leviable under sub-section (1) of section 157 of the said Finance Act.

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 8/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 128(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 266 (अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1"	कोई अध्याय	सभी माल	उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के साथ पठित, वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा, जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर उसपर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क।	-";

(ii) उपाबंध की शर्तों में क्रम सं. 1 और उससे संबंधित शर्तों का लोप किया जाएगा ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 266(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

**Notification**

No. 8/2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 128(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.266 (E), dated the 31st March, 2003, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, for S.No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Any Chapter	All goods	Duty of excise leviable thereon as is equivalent to the additional duty of customs leviable on such goods under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, read with proviso to sub-section (1) of section 3 of the said Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944)	-";

(ii) in the Annexure, in Conditions, S.No. 1 and conditions relating thereto shall be omitted.

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

**Note.**-The principal notification No. 23/2003-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.266 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2003.

अधिसूचना

सं० 9/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन 1926 (शक)

**सा.का.नि. 129(अ) .—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी विशेष आर्थिक जोन में उत्पादित या विनिर्मित और विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के उपबंधों के अनुसार भारत में किसी स्थान पर लाए गए सभी उत्पाद-शुल्क्य माल को उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के साथ पठित, वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा, जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर उसपर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

**स्पष्टीकरण.-** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, विशेष आर्थिक जोन से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76क के अधीन भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आर्थिक जोनों में विभिन्न क्षेत्रों को संबंधित क्षेत्रों के लिए ऐसे जोन के रूप में घोषित करते हुए अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

Notification

No. 9/2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 129(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all excisable goods produced or manufactured in a special economic zone and brought to any other place in India in accordance with the provisions of the Foreign Trade Policy 2004-2009, from the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the additional duty of customs leviable on such goods under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, read with proviso to sub-section (1) of section 3 of the said Central Excise Act, 1944.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, the special economic zone means the special economic zones notified by the Government of India, under section 76A of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962), by declaring various area specific economic zones as such zones for the respective areas.

{F. No.334/1/2005-TRU }

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.



## अधिसूचना

सं० 10/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

सा.का.नि. 130(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं, सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शीति में और सीमा तक संशोधित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन			
(1)	(2)	(3)			
1.	8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 (सा.का.नि. 138 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003)	उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (vii) में, “तीन करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “चार करोड़ रुपए” शब्द 1 अप्रैल, 2005 से रखे जाएंगे।			
2.	10/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 (सा.का.नि. 140 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003)	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 22 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी।			
3.	29/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 (सा.का.नि. 420 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2004)	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-			
		क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष सं. या उपशीर्ष सं.	माल का वर्णन	पहली अनुसूची के अधीन दर
		(1)	(2)	(3)	(4)
		“ 5क	54	ऐसे विनिर्माता द्वारा जिसके पास अपने कारखाने में सुविधाएं (संयंत्र और उपस्कर सहित) नहीं हैं, अध्याय 54 के फिलामेंट सूत के विनिर्माण के लिए बाहर से उपाप्त सभी फिलामेंट सूत जिसका कोई प्रसंस्करण किया गया है। स्पष्टीकरण- इस छूट के प्रयोजनों के लिए, ‘फिलामेंट सूत के विनिर्माण’ से - (क) पोलियामाइड्स, पोलिस्टर, पोलियूरेथीन्स या पोलिविनाइल व्युत्पन्न जैसे कार्बनिक मोनोमरों के पोलिमराइजेशन ; या (ख) प्राकृतिक कार्बनिक पोलिमरों के रसायनिक रूपांतरण (सैलुलोज, केसीन, प्रोटीन्स या एलगे), जैसे विसकोस रेयन, सैलुलोज एसीटेट, कूप्रो या एलिनेट्स,	8%”.

				द्वारा उत्पादित कार्बनिक पोलिमरों के फिलामेंट्स का विनिर्माण अभिप्रेत है I';
4.	30/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 (सा.का.नि. 421 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2004)	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-		
		(1)	(2)	(3)
		“ 6	54	ऐसे विनिर्माता द्वारा जिसके पास अपने कारखाने में सुविधाएं (संयंत्र और उपस्कर सहित) नहीं हैं, अध्याय 54 के फिलामेंट सूत के विनिर्माण के लिए बाहर से उपाप्त सभी फिलामेंट सूत जिसका कोई प्रसंस्करण किया गया है। स्पष्टीकरण- इस छूट के प्रयोजनों के लिए, 'फिलामेंट सूत के विनिर्माण' से - (क) पोलियामाइड्स, पोलिस्टर, पोलियूरेथीन्स या पोलिविनाइल व्युत्पन्न जैसे कार्बनिक मोनोमरों के पोलिमराइजेशन ; या (ख) प्राकृतिक कार्बनिक पोलिमरों के रसायनिक रूपांतरण (सैलुलोज, केसीन, प्रोटीन्स या एलगे), जैसे विसकोस रेयन, सैलुलोज एसीटेट, कूप्रो या एलिग्नेट्स, द्वारा उत्पादित कार्बनिक पोलिमरों के फिलामेंट्स का विनिर्माण अभिप्रेत है I';

2. यह अधिसूचना, क्रम सं. 1 के सामने विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 1 मार्च, 2005 से प्रवृत्त होगी।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण :

(1) मूल अधिसूचना सं.8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 24/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया था।

(2) मूल अधिसूचना सं.10/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 140(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 25/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया था।

(3) मूल अधिसूचना सं.29/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 420(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(4) मूल अधिसूचना सं.30/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 421(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification

No. 10/2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 130(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following notifications of the Government of India, in the then Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended in the manner and to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

S.No.	Notification No. and date	Amendments			
(1)	(2)	(3)			
1	8/2003-Central Excise, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2003 [G.S.R. 138(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2003]	In the said notification, in sub-paragraph (vii) of paragraph 2, for the words "rupees three hundred lakhs", the words "rupees four hundred lakhs" shall be substituted with effect from the 1 <sup>st</sup> day of April, 2005.			
2.	10/2003- Central Excise, dated the 1st March 2003 [G.S.R. 140(E), dated the 1 <sup>st</sup> March, 2003]	In the said notification, in the Table, against S. No. 22, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted.			
3.	29/2004-Central Excise, dated the 9th July, 2004 [G.S.R. 420(E), dated the 9 <sup>th</sup> July, 2004]	In the said notification, in the Table, after S.No. 5, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-			
		(1)	(2)	(3)	(4)
		"5A	54	All filament yarns procured from outside and subjected to any process by a manufacturer who does not have the facilities in his factory (including plant and equipment) for the manufacture of filament yarns of chapter 54. Explanation.- For the purpose of this exemption, 'manufacture of yarns' means manufacture of filaments of organic polymers produced by,- (a) polymerization of organic monomers, such as, polyamides, polyesters, polyurethanes, or polyvinyl derivatives; or (b) chemical transformation of natural organic polymers (cellulose, casein, proteins or algae), such as, viscose rayon, cellulose acetate, cupro or alginates.	8%".
4.	30/2004-Central Excise dated the 9 <sup>th</sup> July, 2004 [G.S.R. 421(E), dated the 9 <sup>th</sup> July, 2004]	In the said notification, in the Table, for S.No. 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-			
		(1)	(2)	(3)	
		"6	54	All filament yarns procured from outside and subjected to any process by a manufacturer who does not have the facilities in his factory (including plant and equipment) for the manufacture of filament yarns of chapter 54. Explanation.- For the purpose of this exemption, 'manufacture of yarns' means manufacture of filaments of organic polymers produced by,-	

				(a) polymerization of organic monomers, such as, polyamides, polyesters, polyurethanes, or polyvinyl derivatives; or (b) chemical transformation of natural organic polymers (cellulose, casein, proteins or algae), such as, viscose rayon, cellulose acetate, cupro or alginates."
--	--	--	--	---

2. This notification, except as specifically otherwise provided against S.No. 1, shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of March 2005.

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.-

- (1) The principal notification number 8/2003-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March 2003 was published in the Gazette of India, vide number 138(E), dated the 1<sup>st</sup> March 2003, and was last amended vide notification number 24/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July 2004.
- (2) The principal notification number 10/2003-Central Excise dated the 1<sup>st</sup> March 2003 was published in the Gazette of India, vide number 140(E), dated the 1<sup>st</sup> March 2003, and was last amended vide notification number 25/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July 2004.
- (3) The principal notification number 29/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 was published in the Gazette of India, vide number 420(E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004.
- (4) The principal notification number 30/2004-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July, 2004 was published in the Gazette of India, vide number 421(E), dated the 9<sup>th</sup> July, 2004.

अधिसूचना

सं० 11 / 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 131(अ) .—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं, अर्थात् :-

- (i) सं० 9/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 139(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 में प्रकाशित की गई थी, को 1 अप्रैल, 2005 से ;
- (ii) सं० 11/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 141(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 में प्रकाशित की गई थी, को 1 मार्च, 2005 से ;
- (iii) सं० 42/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14 मई, 2003, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 412(अ), तारीख 14 मई, 2003 में प्रकाशित की गई थी, को 1 मार्च, 2005 से,

विखंडित करती है ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

Notification

No. 11/2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 131(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue),

namely:-

- (i) No. 9/2003-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March 2003, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 139 (E), dated the 1<sup>st</sup> March 2003, with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2005;
- (ii) No. 11/2003-Central Excise, dated the 1<sup>st</sup> March 2003, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 141 (E), dated the 1<sup>st</sup> March 2003, with effect from the 1<sup>st</sup> day of March, 2005.
- (iii) No. 42/2003-Central Excise, dated the 14<sup>th</sup> May 2003, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 412 (E), dated the 14<sup>th</sup> May 2003, with effect from the 1<sup>st</sup> day of March, 2005.

[F. No. 334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 12/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन 1926 (शक)

**सा.का.नि. 132(अ).**— केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के उपखंड (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे अंतिम उत्पाद के जिसपर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के उपखंड (1), जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, के अधीन उद्ग्रहणीय है, विनिर्माण में उनके उत्पादन के कारखाने के भीतर उत्प्रादित और प्रयुक्त सभी माल को उक्त वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के उपखंड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

Notification

No. 12/2005-Central Excise

New Delhi, dated 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 132(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-clause (3) of clause 85 of the Finance Bill, 2005, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods, produced and used within the factory of their production in the manufacture of final product on which additional duty of excise is leviable under sub-clause (1) of clause 85 of the said Finance Bill, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, from the whole of the additional duty of excise, leviable under said sub-clause (1) of clause 85 of the said Finance Bill, 2005.

[F. No. 334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 13/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 133(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची के अध्याय या शीर्ष के अधीन आने वाले माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उसपर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जो उक्त दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, तथा जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है।

## सारणी

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष	दर
(1)	(2)	(3)
1.	40	कुछ नहीं
2.	54	कुछ नहीं
3.	8415	कुछ नहीं

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

## Notification

No. 13 /2005-Central Excise

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 133(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under the Chapter or heading of the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) as specified in column (2) of the Table below, from so much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Second Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

Table

S.No.	Chapter or heading	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	40	Nil
2.	54	Nil
3.	8415	Nil

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

सं० 11/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 134(अ).**— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का. 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 13/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो सा०का०नि० 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 63 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 13/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 13/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी) द्वारा, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 430 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किया गया था।

Notification

No. 11 /2005-Central Excise ( N.T.)

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 134(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 13/2002- Central Excise (N.T.), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 152 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, against S.No.63, for the entry in column (4), the entry “30%” shall be substituted.

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.-The principal notification No. 13/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1<sup>st</sup> March 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 152 (E), dated the 1<sup>st</sup> March 2002, and was last amended vide notification No. 13/2004-Central Excise (N.T.) and published vide number G.S.R. 430(E), dated the 9<sup>th</sup> July 2004

अधिसूचना

सं० 12/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन 1926 (शक)

**स.का.नि. 135(अ).—**केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में, नियम 12क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“12कक. आभूषण की वस्तुओं में ठेका कार्य-**

(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति (जो निर्यातानुसूचित यूनिट या विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित यूनिट नहीं है) जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्ष 7113 के अधीन आने वाली आभूषण की वस्तुएं प्राप्त करता है, अपनी ओर से ठेका कार्य के आधार पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त व्यक्ति” कहा गया है) उत्पादित या विनिर्मित करता है, रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा, लेखा रखेगा, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय करेगा और इन नियमों के सुसंगत सभी उपबंधों का ऐसे पालन करेगा मानो वह एक निर्धारित है :

परंतु ठेका कर्मकार अपने विकल्प पर, रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर सकेगा, लेखा रख सकेगा, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय कर सकेगा, बीजक तैयार कर सकेगा और इन नियमों के अन्य उपबंधों का पालन कर सकेगा तथा ऐसे मामले में इन नियमों के उपबंध उक्त व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

(2) यदि उक्त व्यक्ति गृह उपभोग के लिए या ठेका कर्मकार के परिसरों से निर्यात के लिए, उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी करना चाहता है तो वह ऐसे उत्पाद शुल्क्य माल पर शुल्क का संदाय करेगा और क्रमशः नियम 8 और नियम 11 में निर्दिष्ट रीति में, ऐसे बीजक पर माल हटाए जाने की तारीख और समय का वर्णन करने के सिवाय, बीजक तैयार करेगा ।

(3) इस प्रकार तैयार किए गए बीजक की मूल प्रति और द्वितीय प्रति उसके द्वारा उस ठेका कर्मकार को भेजी जाएंगी जिसके परिसरों से उत्पाद शुल्क्य माल, ठेका कार्य पूरा होने के पश्चात्, उस माल की ठेका कर्मकार के परिसरों से निकासी किए जाने से पूर्व, निकासी किया जाना आशयित है ।

(4) ठेका कर्मकार माल की निकासी से पूर्व माल को हटाए जाने की तारीख और समय की दिशिष्टियों को भरेगा और ऐसी निकासी के पश्चात् ठेका कर्मकार उस व्यक्ति को उक्त व्यक्ति द्वारा बीजक की तीन प्रतियों में दिशिष्टियां पूरी करने के लिए माल की निकासी की तारीख और समय की सूचना देगा ।

(5) उक्त व्यक्ति ठेका कर्मकार को निम्नलिखित माल का, अर्थात् :-

(क) ऐसे निवेश जिनकी बाबत, उनपर प्रत्यय के प्रत्यागम के बिना, केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय कर नियम, 2004 के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय प्राप्त किया हो या नहीं किया हो ; या

(ख) उक्त व्यक्ति के कारखाने में शुल्क का संदाय किए बिना विनिर्मित माल ;

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 2002 के नियम 11 के उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सूचना के साथ उसके या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित चालान, पारेषण टिप्पण या किसी अन्य दस्तावेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् दस्तावेज कहा गया है), के अधीन प्रदाय करेगा या प्रदाय कराएगा ;



(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट माल के प्रति जवाबदेही के संबंध में दायित्व उक्त व्यक्ति पर होगा ।

(7) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ठेका कर्मकार को, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराना अपेक्षित नहीं होगा या इन नियमों के अधीन किए गए ठेका कर्म के एक मात्र प्रयोजन के लिए की गई प्रक्रियाओं के साक्ष्य रूप में कोई अभिलेख रखना तब तक अपेक्षित नहीं होगा जब तक कि उसने उपनियम (1) के परंतुक के निबंधनों के अनुसार अपने विकल्प का प्रयोग न किया हो ।

(8) ठेका कर्मकार, ठेका कार्य पूरा करने के साथ या पूरा किए बिना, -

(i) माल को उक्त व्यक्ति को शुल्क का संदाय किए बिना वापस कर सकेगा ; या

(ii) घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए माल की निकासी,

उपनियम (4) में यथावर्णित उक्त व्यक्ति से बीजक प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा ।

(9) ठेका कर्मकार माल हटाए जाने के समय और तारीख को भरने के पश्चात् तथा ऐसी विवरणियों को अधिप्रमाणित करने के पश्चात् माल की निकासी करेगा । ऐसे माल पर शुल्क की दर ठेका कर्मकार के परिसरों से ऐसे माल के हटाए जाने की तारीख को प्रवृत्त होगी और कोई उत्पाद शुल्क्य माल बीजक के अधीन ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण 1.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, “ ठेका कर्मकार” से उक्त व्यक्ति द्वारा या उक्त व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय किए गए निदेशों या माल से उक्त व्यक्ति की ओर से और उसके अनुदेशों के अधीन विनिर्माण या प्रसंस्करण में लगा हुआ व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी प्रक्रिया के किसी भाग या संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप अंत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के शीर्ष 7113 के अधीन आने वाली आभूषण की वस्तुओं का विनिर्माण होता हो तथा “ ठेका कार्य” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “ आभूषण की वस्तु” से आभूषण की ऐसी वस्तुएं अभिप्रेत हैं जिनपर ब्रांड नाम या व्यापार नाम अमिट रूप से चिपकाया हुआ या उत्कीर्णित हैं ।

स्पष्टीकरण 3.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ‘ब्रांड नाम’ से ऐसा ब्रांड नाम, भले ही वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिह्न जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या सूचीबद्ध शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है जो उक्त उत्पाद या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान के बारे में किसी उपदर्शन सहित या उसके बिना व्यापार के दौरान कोई संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिसे उपदर्शित किया जा सके, किसी उत्पाद के संबंध में प्रयोग किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 4.- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई माल या उसका कोई भाग या ऐसे माल के विनिर्माण के दौरान उद्भूत अपशिष्ट, उपोत्पाद या उसी तरह का माल टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 7113 के अधीन आने वाली आभूषण की वस्तुओं की निकासी से पूर्व किसी समय हो जाता है या नष्ट हो जाता है या कम पाया जाता है तो उक्त व्यक्ति उसपर शुल्क का संदाय करने का ऐसे दायी होगा मानो ऐसा माल घरेलू उपभोग के लिए निकासी किया गया था ।” ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

षि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

(वि. शिवसुब्रमणियन)

उपसचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सं. 4/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 724(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचना सं. 34/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 नवम्बर, 2004 द्वारा किया गया था ।

**Notification**

No. 12/2005 - Central Excise (N.T.)

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 135(E).—** In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Excise (First Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise Rules, 2002, after rule 12A, the following rule shall be inserted, namely:-

"12AA. Job work in article of jewellery.-(1) Notwithstanding any thing contained in these rules, every person (not being an export-oriented unit or a unit located in special economic zone) who gets article of jewellery falling under heading 7113 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the Tariff Act), produced or manufactured on his behalf, on job work basis, (hereinafter referred to as "the said person") shall obtain registration, maintain accounts, pay duty leviable on such goods and comply with all the relevant provisions of these rules, as if he is an assessee:

Provided that the job worker may, at his option, agree to obtain registration, maintain accounts, pay the duty leviable on such goods, prepare the invoice and comply with the other provisions of these rules and in such a case the provisions of these rules shall not apply to the said person.

(2) If the said person desires clearance of excisable goods for home consumption or for exports from the premises of the job worker, he shall pay duty on such excisable goods and prepare an invoice, in the manner referred to in rules 8 and 11 respectively except for mentioning the date and time of removal of goods on such invoice.

(3) The original and the duplicate copy of the invoice so prepared shall be sent by him to the job worker from whose premises the excisable goods after completion of job work are intended to be cleared, before the goods are cleared from the premises of the job worker.

(4) The job worker shall fill up the particulars of date and time of removal of goods before the clearance of goods and after such clearance the job worker shall intimate to the said person, the date and time of the clearance of goods for completion of the particulars by the said person in the triplicate copy of the invoice.

(5) The said person may supply or cause to supply to a job worker, the following goods, namely:-

- (a) inputs in respect of which he may or may not have availed CENVAT credit in terms of the CENVAT Credit Rules, 2004, without reversal of the credit thereon; or
- (b) goods manufactured in the factory of the said person without payment of duty; under a challan, consignment note or any other document (herein referred to as 'document') with such information as specified in sub-rule (2) of rule 11 of the Central Excise Rules, 2002, duly signed by him or his authorised agent.

(6) The responsibility in respect of accountability of the goods, referred to in sub-rule (5) shall lie on the said person.

(7) Notwithstanding any thing contained in these rules, the job worker shall not be required to get himself registered or shall not be required to maintain any record evidencing the processes undertaken for the sole purposes of undertaking job work under these rules unless he has exercised his option in terms of the proviso to sub-rule (1).

(8) The job worker, with or without completing the job work may,-

- (i) return the goods without payment of duty to the said person; or
  - (ii) clear the goods for home consumption or for exports;
- subject to receipt of an invoice from the said person, as mentioned in sub-rule (4).

(9) The job worker shall clear the goods after filling in invoice the time and date of removal and authentication of such details. The rate of duty on such goods shall be the rate in force on date of removal of such goods from the premises of the job worker and no excisable goods shall be removed except under the invoice.

*Explanation 1.* - For the purpose of this rule, "job worker" means a person engaged in manufacture or processing on behalf and under the instructions of the said person from any inputs or goods supplied by the said person or by any other person authorized by the said person, so as to complete a part or whole of the process resulting ultimately in manufacture of articles of jewellery falling under heading 7113 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, and the term "job work" shall be construed accordingly.

*Explanation 2.* - For the purposes of this rule, article of jewellery shall mean articles of jewellery on which brand name or trade name is indelibly affixed or embossed on itself.

*Explanation 3.* For the purposes of this notification, 'brand name or trade name' means a brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person

*Explanation 4.* - For the removal of doubts, it is hereby clarified that if any goods or part thereof is lost, destroyed, found short at any time before the clearance of articles of jewellery falling under heading 7113 of the First Schedule to the Tariff Act or waste, by-products or like goods arising during the course of manufacture of such goods, the said person shall be liable to pay duty thereon as if such goods were cleared for home consumption".

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No. 4/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, vide number G.S.R. 143 (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, and were last amended vide notification No.34/2004-Central Excise (N.T.), dated the 1<sup>st</sup> November 2004 vide number G.S.R. 724 (E), dated 1<sup>st</sup> November 2004.

अधिसूचना

सं० 13/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन 1926 (शक)

**सा.का.नि. 136(अ) .-** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ढक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 7113 के अधीन आने वाली आभूषण की वस्तुओं के संबंध में “विनिर्माता” या “उत्पादक” के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12कक के उपनियम (1) के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क का संदाय करने का दायी है ;”;

### 3. उक्त नियमों के नियम 3 में,-

#### (अ) उपनियम (1) में,-

(I) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (vii) वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, यथाप्रतिस्थापित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क :

परंतु कराधेय सेवा प्रदाता ऐसे अतिरिक्त शुल्क का प्रत्यय करने का पात्र नहीं होगा ;”;

(II) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xi) वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क I”;

(आ) उपनियम (4) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु यह भी कि वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है द्वारा यथाअंतःस्थापित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के किसी प्रत्यय का किसी उत्पादन सेवा पर सेवाकर के संदाय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय से भिन्न उपनियम (1) में वर्णित किसी शुल्क के केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपयोग अंतिम उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा I” ।

(इ) उपनियम (7) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (ख) निम्नलिखित की बाबत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर--

- (i) अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ;
- (ii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि ;
- (iii) वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 93 के साथ पठित धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर ;

- (iv) ऊपर मद (i), (ii) और (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क के बराबर सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क ;
- (v) वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 157 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ;
- (vi) वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 95 के साथ पठित धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर ; और
- (vii) वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क,

विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी अंतिम उत्पाद पर, क्रमशः उक्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम, 1978 के अधीन उद्ग्रहणीय, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या सेवाकर या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क या उक्त वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के साथ पठित धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर या उक्त वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 157 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क या उक्त वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 की धारा 95 के साथ पठित धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर या वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के संदाय मदे ही या स्वयं ऐसे निवेशों पर, यदि ऐसे निवेश उस रूप में हटा लिए जाते हैं या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किए जाने पर या किसी उत्पादन सेवा पर, ऐसे शुल्क के मदे उपयोग किया जाएगा :

परंतु उत्पाद शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर या कराधेय सेवा पर शिक्षा उपकर के प्रत्यय का उपयोग या तो उत्पाद शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर के संदाय के लिए या कराधेय सेवाओं पर उपकर के संदाय के लिए किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण.- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2000 कि या उसके पश्चात् संदत्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय का उपयोग उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के संदाय मदे किया जा सकेगा ;” ।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में,-

(अ) उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु अंतिम उत्पादों अर्थात् उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 7113 के अधीन आने वाली आभूषण की वस्तुओं के संबंध में निवेशों पर संदत्त शुल्क का केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय उस व्यक्ति के जो ठेके पर उसके मदे विनिर्मित ऐसे अंतिम उत्पादों को प्राप्त करता है, रजिस्ट्रीकृत परिसरों में ऐसे निवेशों की ठीक प्राप्ति पर किया जा सकेगा, यह इस शर्त के

अधीन रहते हुए किया जा सकेगा कि उन निवेशों का उपयोग उक्त कार्य के ठेकेदार द्वारा ऐसे अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में किया जाता है।”।

(आ) खंड (क) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु यह और कि पूंजीगत माल के संबंध में वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, द्वारा यथाअंतःस्थापित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय विनिर्माणकर्ता के कारखाने में पूंजीगत माल की ठीक प्राप्ति पर अनुज्ञात किया जाएगा।”;

5. उक्त नियमों के नियम 5 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु यह और कि वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, द्वारा यथाअंतःस्थापित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के किसी प्रत्यय का किसी उत्पादन सेवा पर सेवाकर के संदाय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ;”।

6. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु निवेशों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12कक में निर्दिष्ट ठेका कर्मकार को इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि उक्त निवेशों का उपयोग उस नियम के उपबंधों के अधीन शुल्क का संदाय किए बिना निकासी किए गए माल के विनिर्माण में किया जाता है।”।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सं.23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि.47(अ), तारीख 28 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 28 जनवरी, 2005 द्वारा किया गया था।

Notification

No.13/2005 - Central Excise (N.T.)

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 136(E)**— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2005.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (herein after referred to as the said rules), in rule 2, after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:-  
' (na) "manufacturer" or "producer" in relation to articles of jewellery falling under heading 7113 of the First Schedule to the Excise Tariff Act, includes a person who is liable to pay duty of excise leviable on such goods under sub-rule (1) of rule 12AA of the Central Excise Rules, 2002;'
3. In rule 3 of the said rules,-  
(A) in sub-rule (1),-  
(I) after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-  
"(viiia) the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, as substituted by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law:  
Provided that a provider of taxable service shall not be eligible to take credit of such additional duty;";  
(II) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely:-  
"(xi) the additional duty of excise leviable under clause 85 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law;";  
(B) in sub-rule (4), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-  
"Provided also that no credit of the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931, the force of law, shall be utilised for payment of service tax on any output service:  
Provided also that the CENVAT credit of any duty mentioned in sub-rule (1), other than credit of additional duty of excise leviable under clause 85 of the said Finance Bill, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931, the force of law, shall not be utilised for payment of said additional duty of excise on final products:"
- (C) in sub-rule (7), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-  
"(b) CENVAT credit in respect of -  
(i) the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978);  
(ii) the National Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001);  
(iii) the education cess on excisable goods leviable under section 91 read with section 93 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004);  
(iv) the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, equivalent to the duty of excise specified under items (i), (ii) and (iii) above;  
(v) the additional duty of excise leviable under section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003);  
(vi) the education cess on taxable services leviable under section 91 read with section 95 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004); and

(vii) the additional duty of excise leviable under clause 85 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931, the force of law, shall be utilized only towards payment of duty of excise or as the case may be, of service tax leviable under the said Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 or the National Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), or the education cess on excisable goods leviable under section 91 read with section 93 of the Finance (No.2) Act, 2004, additional duty of excise leviable under section 157 of the Finance Act, 2003, or the education cess on taxable services leviable under section 91 read with section 95 of the said Finance (No.2) Act, 2004, or the additional duty of excise leviable under clause 85 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, respectively, on any final products manufactured by the manufacturer or for payment of such duty on inputs themselves, if such inputs are removed as such or after being partially processed or on any output service:

Provided that the credit of the education cess on excisable goods and education cess on taxable services can be utilised, either for payment of the education cess on excisable goods or for the payment of the education cess on taxable services.

*Explanation.*—For the removal of doubts, it is hereby declared that the credit of the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) paid on or after the 1<sup>st</sup> day of April, 2000, may be utilised towards payment of duty of excise leviable under the First Schedule or the Second Schedule to the Excise Tariff Act.”

4. In rule 4 of the said rules,-

(A) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in respect of final products, namely, articles of jewellery falling under heading 7113 of the First Schedule to the Excise Tariff Act, the CENVAT credit of duty paid on inputs may be taken immediately on receipt of such inputs in the registered premises of the person who get such final products manufactured on his behalf, on job work basis, subject to the condition that the inputs are used in the manufacture of such final product by the job worker.”;

(B) in sub-rule (2), in clause (a), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the CENVAT credit of the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931, the force of law, in respect of capital goods shall be allowed immediately on receipt of the capital goods in the factory of a manufacturer.”

5. In rule 5 of the said rules, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that no credit of the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005, the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill, under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931, the force of law, shall be utilised for payment of service tax on any output service.”

6. In rule 6 of the said rules, in sub-rule(1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the CENVAT credit on inputs shall not be denied to job worker referred to in rule 12AA of the Central Excise Rules, 2002, on the ground that the said inputs are used in the manufacture of goods cleared without payment of duty under the provisions of that rule.”

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: The principal rules were notified *vide* notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10<sup>th</sup> September, 2004, and published in the Gazette of India Extraordinary *vide* number G.S.R.600 (E), the 10<sup>th</sup> September, 2004 and last amended *vide* notification No. 3/2005-Central Excise (N.T.), dated the 28<sup>th</sup> January, 2005 and published *vide* number G.S.R. 47 (E), dated the 28<sup>th</sup> January, 2005.



अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

सं० 14/ 2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.)

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

127

**सा.का.नि. 137(अ).**— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 33 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 36/2001 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 26 जून, 2001 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.465(अ) तारीख 26 जून, 2001 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,-

- (i) पैरा (3) में, स्पष्टीकरण में, “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “साठ लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) ‘घोषणा प्ररूप’ और अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### “घोषणा प्ररूप

सेवा में

उपायुक्त/सहायक आयुक्त  
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,

मैं/हम .....घोषणा करता हूँ/करते हैं कि नीचे अनुसूची में दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही और पूर्ण हैं ।

मैं/हम .....यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जहां भी अधिसूचना/अधिसूचनाओं में या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) में वर्णित शर्तों के आधार पर छूट का दावा किया गया है, मेरे/हमारे द्वारा उक्त शर्त पूरी की गई है ।

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि जैसे ही किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोग के लिए निकासी किए गए माल का मूल्य पूरी छूट की सीमा तक पहुंचता है या अनुसूची में वर्णित माल शुल्क से प्रभार्य होता है, उक्त अनुसूची में वर्णित उचित प्ररूप में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करूंगा/करेंगे ।

मैं/हम ऐसे अभिलेख रखने और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने का वचन देता हूँ/देते हैं जो छूट प्राप्त माल के संबंध में आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

मैं/हम उक्त अनुसूची में दी गई सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना देने का भी वचन देता हूँ/देते हैं ।

#### अनुसूची

1. कारखाने का नाम और पूरा पता
2. अन्य कारखानों/विनिर्माताओं (ऐसे माल के उत्पादक) जिनमें विनिर्माता छूट का दावा करते हुए सांपत्तिक हित रखते हैं, के नाम और पते
3. कारखाने की प्रास्थिति (केवल एक खाने में सही का निशान लगाएं)

स्वत्वधारी ☐ भागीदारी ☐ रजिस्ट्रीकृत कंपनी ☐  
 अरजिस्ट्रीकृत कंपनी ☐ न्यास ☐ सोसाइटी ☐ अन्य ☐

4. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारखाने द्वारा विनिर्मित उत्पाद शुल्क्य माल के ब्यौरे

क्रम सं०	उत्पाद शुल्क्य माल के ब्यौरे	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अधीन वर्गीकरण	निकासी का मूल्य (रु०)	प्राप्त की गई अधिसूचना सं० और तारीख	अधिसूचना में क्रम सं०, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पण- 1. प्ररूप/अनुसूची का भाग जो सुसंगत न हो, उसे काट दें ।

2. जहां माल को टैरिफ से छूट प्राप्त है वहां छूट देने वाले सुसंगत उपबंध को, विशिष्ट टैरिफ उपशीर्ष के सामने स्तंभ (5) में उल्लिखित करें ।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त होगी ।

[ फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू. ]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 465(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा अधिसूचना सं० 36/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई और इसमें अंतिम संशोधन सा०का०नि० 464(अ), तारीख 9 जून, 2003 द्वारा अधिसूचना सं० 53/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 9 जून, 2003 द्वारा किया गया था ।

Notification

No. 14/2005-Central Excise (N.T.)

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 137(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 read with rule 33 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26<sup>th</sup> June, 2001, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 465(E), dated the 26<sup>th</sup> June, 2001 namely:-

2. In the said notification,-
- (i) in paragraph (3), in Explanation, for the words "ten lakh rupees", the words "sixty lakh rupees" shall be substituted;
  - (ii) for the 'Declaration Form' and the schedule, the following shall be substituted namely:-

**"Declaration Form**

To  
The Deputy Commissioner/Assistant Commissioner,  
Central Excise,

I/We..... declare that to the best of my/our knowledge and belief the information furnished in the Schedule below is true and complete.

I/We..... declare that wherever the exemption has been claimed on the basis of conditions mentioned in the notification(s) or in Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the said conditions have been fulfilled by me/us.

I/We undertake to apply for Central Excise Registration in the proper form as soon as the value of the goods, mentioned in the said Schedule, cleared for home consumption in a financial year, reaches the full exemption limit or as soon as the goods mentioned in the Schedule become chargeable to duty.

I/We undertake to maintain such records and follow such procedure as may be specified by the Commissioner in relation to the exempted goods.

I/We also undertake to intimate any change in the information furnished in the said Schedule.

**The Schedule**

1. Name and full address of the factory.
2. Name and addresses of other factories/manufacturers (producing such goods) in whom the manufacturer claiming the exemption has proprietary interest.

3. Status of business (tick only one box)

Proprietorship

☐

Partnership

☐

Registered Company

☐

Unregistered Company

☐

Trust

☐

Society

☐

Others

☐

651 62/05- 9

## 4. Details of the excisable goods manufactured by the factory during the preceding Financial year:

S.No.	Description of excisable goods	Classification under First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)	Value of clearance (Rs.)	Notification No. and date, availed	Sr. No. in the notification (if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Signature of the Declarant)

Note.- 1. Portion of the Form/Schedule that is not relevant may be deleted.

2. Where the goods are exempted from the Tariff, the relevant provision giving such exemption may be mentioned in column (5) against particular Tariff sub-heading."

3. This notification shall come into force on 1<sup>st</sup> day of April, 2005.

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, vide notification No. 36/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26<sup>th</sup> June, 2001, vide number G.S.R. 465(E), dated the 26<sup>th</sup> June, 2001 and was last amended vide notification No. 53/2003-Central Excise (N.T.), dated the 9<sup>th</sup> June, 2003 vide number G.S.R. 464(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2003.

अधिसूचना

सं० 4/2005-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

सा.का.नि. 138(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 589(अ), तारीख, 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण.-इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “प्रभारित कुल रकम” में संनिर्माण सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी सेवा प्रदान करते समय प्रदाय या प्रदान या प्रयुक्त किए गए माल या सामग्री का मूल्य सम्मिलित होगा ।’ ।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 15/2004-सेवा कर, तारीख 10 सितम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 589(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification

No. 4/2005-Service Tax

New Delhi, dated 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

१७९

**G.S.R. 138(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/2004-Service Tax, dated the 10th September, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 589 (E), dated the 10th September, 2004, namely:-

In the said notification, the following *Explanation* shall be added at the end, namely:-

*'Explanation.-* For the purposes of this notification, the "gross amount charged" shall include the value of goods and materials supplied or provided or used by the provider of the construction service for providing such service.'

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.- The principal notification No. 15/2004-Service Tax, dated the 10th September, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 589 (E), dated the 10th September, 2004.

अधिसूचना

सं० 5/ 2005-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 139(अ).**— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2004-सेवा कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 849(अ), तारीख, 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा (क) के उपपैरा (iv) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) यथास्थिति, किसी पारस्परिक निधि वितरक या अभिकर्ता द्वारा पारस्परिक निधि के वितरण की कारबार सहायक सेवा के संबंध में ;”।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त होगी।

[फ़. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 36/2004-सेवा कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 में सा.का.नि. 849(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

Notification

No. 5/2005-Service Tax

New Delhi, dated 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 139(E)**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 849 (E), dated the 31st December, 2004, namely:-

In the said notification, after sub-paragraph (iv) of paragraph (A), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(v) in relation to business auxiliary service of distribution of mutual fund by a mutual fund distributor or an agent, as the case may be;”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2005.

[F No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.- The principal notification No. 36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st December, 2004 vide number G.S.R. 849 (E), dated the 31st December, 2004.

अधिसूचना

सं० 6/ 2005-सेवाकर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

**सा.का.नि. 140(अ)**— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य की कराधेय सेवाओं पर उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवाकर से छूट देती है :

परंतु इस अधिसूचना की कोई बात, -

(i) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम या व्यापार नाम के अधीन, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, प्रदान की गई कराधेय सेवाओं ; या

(ii) कराधेय सेवाओं के ऐसे मूल्य को जिसके संबंध में सेवाकर का संदाय ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी श्रुति में किया जाएगा जो सेवाकर नियम, 1994 के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो,

लागू नहीं होगी ।

2. इस अधिसूचना की छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए लागू होगी, अर्थात् :-

- (i) कराधेय सेवा प्रदाता को यह विकल्प होगा कि वह इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट का लाभ न उठाए और उसके द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर सेवाकर का संदाय करे तथा ऐसा विकल्प, यदि इसका किसी वित्तीय वर्ष में एक बार प्रयोग कर लिया गया हो तो वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं किया जाएगा ;
- (ii) कराधेय सेवा प्रदाता केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 या नियम 13 के अधीन उक्त कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए, जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन सेवाकर के संदाय से छूट प्राप्त की गई है, प्रयुक्त किन्हीं निवेश सेवाओं पर संदत्त सेवा के केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का लाभ प्राप्त नहीं करेगा ;
- (iii) कराधेय सेवा प्रदाता उक्त नियमों के नियम 3 के अधीन केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का लाभ उस अवधि के दौरान जिसमें सेवा प्रदाता इस अधिसूचना के अधीन सेवाकर के संदाय से छूट प्राप्त करता है, ऐसी कराधेय सेवा के प्रदाता के परिसरों में प्राप्त पूंजीगत माल पर ही प्राप्त नहीं करेगा ;
- (iv) कराधेय सेवा प्रदाता उस तारीख को या उस तारीख के पश्चात् जिसको सेवा प्रदाता सेवाकर का संदाय करना आरंभ करता है, प्राप्त और ऐसी कराधेय सेवाओं के, जिसके लिए सेवाकर संदेय है, उपबंध के लिए प्रयुक्त ऐसे निवेशों या निवेश सेवाओं पर ही केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय प्राप्त करेगा ;
- (v) कराधेय सेवा प्रदाता से, जो इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करना आरंभ करता है, उस तारीख को जिसको कराधेय सेवा प्रदाता इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करना आरंभ करता है, स्टॉक में पड़े या प्रक्रियाधीन ऐसे निवेशों की बाबत उसके द्वारा किया गया केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, यदि कोई हो, के बराबर रकम का संदाय करना अपेक्षित होगा ;
- (vi) उपपैरा (v) में निर्दिष्ट रकम घटाने के पश्चात्, कराधेय सेवा प्रदाता के खाते में अनुपयोजित प्रयुक्त पड़े केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के अतिशेष का उपयोग उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन उपबंध के निबंधनों के अनुसार नहीं किया जाएगा और उस तारीख को व्यपगत हो जाएगा जिसको ऐसा सेवा प्रदाता इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करना आरंभ करता है ;
- (vii) जहां कराधेय सेवा प्रदाता एक या अधिक परिसरों से एक या अधिक कराधेय सेवाएं प्रदान करता है, वहां इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी सभी कराधेय सेवाओं के सकल मूल्य को और ऐसे सभी परिसरों से और न कि प्रत्येक परिसर से या प्रत्येक सेवा के लिए पृथक् से लागू होगी ;
- (viii) कराधेय सेवा प्रदाता द्वारा एक या अधिक परिसरों से दी गई कराधेय सेवाओं का सकल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में चार लाख से अधिक नहीं होता है ।

3. माल परिवहन अभिकरण द्वारा दी गई कराधेय सेवा के संबंध में, चार लाख रुपए से अनधिक के सकल मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के अधीन छूट लेने के लिए धारा 67 के अधीन माल परिवहन अभिकरण द्वारा प्रभारित कुल रकम मद्दे प्राप्त संदाय को, जिसके लिए सेवाकर का संदाय करने का दायी व्यक्ति सेवाकर नियम, 1994 के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट है, गणना में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(क) 'ब्रांड नाम' या 'व्यापार नाम' से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम, भले ही वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिह्न जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लोगो, लेबल, हस्ताक्षर या सूचीबद्ध शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है जो ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान के बारे में किसी उपदर्शन सहित या उसके बिना व्यापार के दौरान कोई संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में प्रयोग किया जाता है ;

(ख) "चार लाख रुपए से अनधिक का सकल मूल्य" से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कराधेय सेवाओं मद्दे सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित वित्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन यथाविहित कुल रकम मद्दे प्राप्त पहले क्रमवर्ती संदायों की उस सीमा तक कुल रकम अभिप्रेत है जिस तक कि ऐसे संदायों की कुल रकम चार लाख रुपए के बराबर है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी कुल रकम मद्दे प्राप्त संदाय नहीं हैं जिसे किसी अन्य अधिसूचना के अधीन उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवाकर से छूट प्राप्त है ।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

Notification

No. 6/2005-Service Tax

New Delhi, dated 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 140(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services of aggregate value not exceeding four lakh rupees in any financial year from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to,-

- (i) taxable services provided by a person under a brand name or trade name, whether registered or not, of another person; or
- (ii) such value of taxable services in respect of which service tax shall be paid by such person and in such manner as specified under sub-section (2) of section 68 of the said Finance Act read with Service Tax Rules, 1994.



2. The exemption contained in this notification shall apply subject to the following conditions, namely:-

- (i) the provider of taxable service has the option not to avail the exemption contained in this notification and pay service tax on the taxable services provided by him and such option, once exercised in a financial year, shall not be withdrawn during the remaining part of such financial year;
  - (ii) the provider of taxable service shall not avail the CENVAT credit of service tax paid on any input services, under rule 3 or rule 13 of the CENVAT Credit Rules, 2004 (herein after referred to as the said rules), used for providing the said taxable service, for which exemption from payment of service tax under this notification is availed of;
  - (iii) the provider of taxable service shall not avail the CENVAT credit under rule 3 of the said rules, on capital goods received in the premises of provider of such taxable service during the period in which the service provider avails exemption from payment of service tax under this notification;
  - (iv) the provider of taxable service shall avail the CENVAT credit only on such inputs or input services received, on or after the date on which the service provider starts paying service tax, and used for the provision of taxable services for which service tax is payable;
  - (v) the provider of taxable service who starts availing exemption under this notification shall be required to pay an amount equivalent to the CENVAT credit taken by him, if any, in respect of such inputs lying in stock or in process on the date on which the provider of taxable service starts availing exemption under this notification;
  - (vi) the balance of CENVAT credit lying unutilised in the account of the taxable service provider after deducting the amount referred to in sub-paragraph (v), if any, shall not be utilised in terms of provision under sub-rule (4) of rule 3 of the said rules and shall lapse on the day such service provider starts availing the exemption under this notification;
  - (vii) where a taxable service provider provides one or more taxable services from one or more premises, the exemption under this notification shall apply to the aggregate value of all such taxable services and from all such premises and not separately for each premises or each services; and
  - (viii) the aggregate value of taxable services rendered by a provider of taxable service from one or more premises, does not exceed rupees four lakhs in the preceding financial year.
3. For the purposes of determining aggregate value not exceeding four lakh rupees, to avail exemption under this notification, in relation to taxable service provided by a goods transport agency, the payment received towards the gross amount charged by such goods transport agency under section 67 for which the person liable for paying service tax is as specified under sub-section (2) of section 68 of the said Finance Act read with Service Tax Rules, 1994, shall not be taken into account.

*Explanation.* - For the purposes of this notification,-

- (A) "brand name" or "trade name" means a brand name or a trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, logo, label, signature, or invented word or writing which is used in relation to such specified services for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified services and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person;
- (B) "aggregate value not exceeding four lakh rupees" means the sum total of first consecutive payments received during a financial year towards the gross amount, as prescribed under section 67 of the said Finance Act, charged by the service provider towards taxable services till the aggregate amount of such payments is equal to four lakh rupees but does not include payments received towards such gross amount which are exempt from whole of service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act under any other notification.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2005.

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

सं० 7/2005-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

सा.का.नि. 141(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) में उपखंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) यथास्थिति, किसी पारस्परिक निधि वितरक या किसी अभिकर्ता द्वारा पारस्परिक निधि के वितरण की कारबार सहायक सेवा के संबंध में ऐसी सेवा प्राप्त कर रही, यथास्थिति, पारस्परिक निधि या आस्ति प्रबंधन कंपनी ;”;

3. उक्त नियमों के नियम 4 में,-

(i) उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(2) जहां कोई निर्धारिती एक से अधिक परिसरों या कार्यालयों से कराधेय सेवा प्रदान कर रहा है और उसके पास इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के संबंध में केन्द्रीयकृत बिलिंग प्रणालियां या केन्द्रीयकृत लेखाकर्म प्रणालियां हैं और ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या केन्द्रीयकृत लेखाकर्म प्रणालियां एक से अधिक कार्यालयों या परिसरों में अवस्थित हैं, वहां वह, अपने विकल्प पर, उन परिसरों या कार्यालयों को रजिस्टर करा सकेगा जहां ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग प्रणालियां या लेखाकर्म प्रणालियां अवस्थित हैं :

(3) उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण,-

(क) ऐसे, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त जिसकी अधिकारिता के भीतर कराधेय सेवा प्रदान करने वाले सभी परिसर या कार्यालय और ऐसे परिसर या कार्यालय, जहां से केन्द्रीयकृत बिलिंग या केन्द्रीयकृत लेखाकर्म किया जाता है, अवस्थित हैं ; और

(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न मामलों में, ऐसे प्राधिकारी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा अनुदत्त किया जाएगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात, ऐसे परिसरों या कार्यालयों को, जिनमें ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या केन्द्रीयकृत लेखाकर्म प्रणालियां हैं, 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व, अनुदत्त रजिस्ट्रीकरणों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3क) जहां कोई निर्धारिती कोई कराधेय सेवा एक से अधिक परिसरों या कार्यालयों से प्रदान कर रहा है और उसके पास, यथास्थिति, कोई केन्द्रीयकृत बिलिंग प्रणालियां या केन्द्रीयकृत लेखाकर्म प्रणालियां नहीं हैं तो वह ऐसे परिसरों या कार्यालयों में से प्रत्येक की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को करेगा ।”;

4. उक्त नियमों के नियम 4क के उपनियम (1) में,-

(i) “सभी व्यक्ति जो कराधेय सेवा प्रदान करते हैं,” शब्दों के पश्चात्, “ऐसी कराधेय सेवा के पूरा होने की या ऐसी कराधेय सेवा के मूल्य मदे कोई संदाय प्राप्त करने की, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तारीख से चौदह दिन के अपश्चात्” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “कराधेय सेवा जो प्रदान की गई है या जो प्रदान की जाने वाली है, के संबंध में,” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी कराधेय सेवा के संबंध में,” शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 6 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) सेवा कर केन्द्रीय सरकार के खाते में उस कलेन्डर मास के जिसमें संदाय प्राप्त किए गए हैं, ठीक पश्चात्वर्ती मास की 5 तारीख तक कराधेय सेवाओं के मूल्य मदे संदत्त किया जाएगा :

परंतु जहां निर्धारिती कोई व्यक्ति या स्वत्वधारी फर्म या भागीदारी फर्म है, वहां सेवा कर केन्द्रीय सरकार के खाते में उस तिमाही के, जिसमें संदाय प्राप्त किए जाते हैं, ठीक पश्चात्वर्ती मास की 5 तारीख तक कराधेय सेवाओं के मूल्य मदे संदत्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि सेवाओं के मूल्य मदे संदाय की प्राप्ति का कोई समय होते हुए भी, सेवा के मूल्य के भागरूप या संपूर्ण मूल्य के लिए कोई सेवा कर संदेय नहीं होगा जो उस अवधि के दौरान जब ऐसी सेवाएं कराधेय नहीं थी, प्रदान की गई सेवाओं से तात्पर्यित हैं :

परंतु यह भी कि, यथास्थिति, मार्च मास के या मार्च के अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त कराधेय सेवाओं के मूल्य पर सेवा कर का संदाय केन्द्रीय सरकार के खाते में कलेन्डर वर्ष की 31 मार्च तक किया जाएगा ।” ।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.3/2005-सेवा कर, तारीख 26 फरवरी, 2005 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 107(अ), तारीख 26 फरवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

Notification

No. 7/2005-Service Tax

New Delhi, dated 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalguna, 1926 (Saka)

**G.S.R. 141(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Fourth Amendment) Rules, 2005.  
(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2005.
2. In the Service Tax Rules, 1994, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (d), after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely:-  
“(vi) in relation to business auxiliary service of distribution of mutual fund by a mutual fund distributor or an agent, as the case be, the mutual fund or asset management company, as the case may be, receiving such service;”
3. In the said rules, in rule 4,-
  - (i) for sub-rules (2), (3) and (3A), the following sub-rules shall be substituted, namely:-  
“(2) Where an assessee is providing a taxable service from more than one premises or offices and has centralized billing systems or centralized accounting systems in respect of such service, and such centralized billing or centralized accounting systems are located in one or more offices or premises, he may, at his option, register such premises or offices from where such centralized billing or centralized accounting systems are located.  
(3) The registration under sub-rule (2), shall be granted,-
    - (a) by the Commissioner of Central Excise or the Chief Commissioner of Central Excise, as the case may be, in whose jurisdiction all the premises or offices providing taxable service and the premise or office from where centralised billing or centralised accounting is done, are located; and
    - (b) in cases other than (a) above, by such authority, as may be specified by the Board:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall have any effect on the registrations granted to the premises or offices having such centralized billing or centralized accounting systems, prior to 1st day of April, 2005.

  
(3A) Where an assessee is providing a taxable service from more than one premises or offices, and does not have any centralized billing systems or centralized accounting systems, as the case may be, he shall make separate applications for registration in respect of each of such premises or offices to the jurisdictional Superintendent of Central Excise.”
4. In the said rules, in rule 4A, in sub-rule (1),-
  - (i) after the words “Every person providing taxable service shall”, the words “, not later than fourteen days from the date of completion of such taxable service or receipt of any payment towards the value of such taxable service, whichever is earlier,” shall be inserted;
  - (ii) for the words “in respect of taxable service”, the words “in respect of such taxable service” shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-  
“(1) The service tax shall be paid to the credit of the Central Government by the 5<sup>th</sup> of the month immediately following the calendar month in which the payments are received, towards the value of taxable services:  
Provided that where the assessee is an individual or proprietary firm or partnership firm, the service tax shall be paid to the credit of the Central Government by the 5<sup>th</sup> of the month

immediately following the quarter in which the payments are received, towards the value of taxable services:

Provided further that notwithstanding the time of receipt of payment towards the value of services, no service tax shall be payable for the part or whole of the value of services, which is attributable to services provided during the period when such services were not taxable:

Provided also that the service tax on the value of taxable services received during the month of March, or the quarter ending in March, as the case may be, shall be paid to the credit of the Central Government by the 31st day of March of the calendar year."

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note.- The principal rules were notified vide notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.546 (E), dated the 28th June 1994 and were last amended vide notification No. 3/2005-Service Tax, dated the 26th February, 2005 which was published vide number G.S.R. 107(E), dated the 26th February, 2005.

अधिसूचना

सं० 8/2005-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2005.

10 फाल्गुन, 1926 (शक)

142

सा.का.नि. 142(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त विधेयक कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (19) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट ग्राहक की ओर से माल के उत्पादन की कसौटी सेवा को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है :

परंतु उक्त छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां ऐसा माल ग्राहक द्वारा प्रदाय की गई कच्ची सामग्री या अर्धतैयार माल का उपयोग करते हुए उत्पादित किया जाता है और इस प्रकार उत्पादित माल उक्त ग्राहक को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले किसी अन्य माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में उपयोग के लिए वापस कर दिया जाता है, जिसपर समुचित उत्पाद-शुल्क संदेय है।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(i) "माल के उत्पादन" पद से कच्ची सामग्री या अर्धतैयार माल पर इस शर्त के अधीन रहते हुए कोई कार्य करना अभिप्रेत है जिससे उत्पादन का कोई भाग या संपूर्ण उत्पादन पूरा किया जा सके, कि ऐसा उत्पादन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (च) के अर्थान्तर्गत "विनिर्माण" की कोटि में नहीं आता है ;

(ii) "समुचित उत्पाद-शुल्क" में शुल्क या संपूर्ण छूट प्राप्त उत्पाद-शुल्क की दर "कुछ नहीं" सम्मिलित नहीं होगी।

[फा. सं. 334/1/2005-टी.आर.यू.]

वि० शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

Notification

No. 8/2005-Service Tax

New Delhi, dated 1<sup>st</sup> March, 2005.

10 Phalgun, 1926 (Saka)

**G.S.R. 142(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service of production of goods on behalf of the client referred in sub-clause (v) of clause (19) of section 65 of the said Finance Act, from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act:

Provided that the said exemption shall apply only in cases where such goods are produced using raw materials or semi-finished goods supplied by the client and goods so produced are returned back to the said client for use in or in relation to manufacture of any other goods falling under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), as amended by the Central Excise Tariff (Amendment) Act, 2004 (5 of 2005), on which appropriate duty of excise is payable.

*Explanation.*— For the purposes of this notification,—

- (i) the expression “production of goods” means working upon raw materials or semi-finished goods so as to complete part or whole of production, subject to the condition that such production does not amount to “manufacture” within the meaning of clause (f) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (ii) “appropriate duty of excise” shall not include ‘Nil’ rate of duty or duty of excise wholly exempt.

[F. No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.